

# गौरवशाली भारत

वर्ष : 11

अंक : 239

पृष्ठ : 08

नई दिल्ली

शनिवार 12 मार्च 2022

मूल्य : 1.50/-

RNI No .DELHIN/2011/38334

नई दिल्ली से प्रकाशित

मुख्य अपडेट

पेज 3

यूपी चुनाव 2022 : साहिबाबाद में भाजपा की सबसे बड़ी जीत, 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतकर सुनील शर्मा ने बनाया कीर्तिमान

पेज 5

मुस्लिम दलित समाज मिल जाता तो यूपी में परिणाम कुछ और होते : मायावती

पेज 7

कुलदीप यादव को टीम से झोंप नहीं किया गया बल्कि ट्रेक दिया गया : बुमराह



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह 11 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 37वें स्थापना दिवस समारोह में।

## देश की सभी एजेन्सी अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली से जल्द जुड़ें : शाह

नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सभी केन्द्रीय जांच एजेन्सियों को जल्द से जल्द अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली से जुड़कर पुलिस थानों की तरह विभिन्न मामलों से संबंधित प्राथमिकी, आरोप पत्र और जांच रिपोर्ट इस केन्द्रीय पोर्टल पर साझा

करनी चाहिए। शाह ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 37वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 99 प्रतिशत यानी 16390 पुलिस स्टेशन इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं लेकिन इसके केन्द्रीय व्यवस्था होने के बावजूद राष्ट्रीय जांच एजेन्सी,

केन्द्रीय जांच ब्यूरो और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो जैसी केन्द्रीय एजेन्सी इससे नहीं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब प्राथमिकी और उनमें लिखी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं तो उसमें क्या गोपनीयता बचती है। इनको इस प्रणाली पर दर्ज किया जाना चाहिए।

## पीएम मोदी का मिशन गुजरात

### पंचायत महासम्मेलन में पीएम ने कहा- हमें सरपंच पति वाले सिस्टम की जरूरत नहीं

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के गुजरात दौर पर हैं। शुक्रवार को 9 किलोमीटर लंबे रोड शो और झड़ककार्यकर्ताओं से मीटिंग के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पंचायत महासम्मेलन में मोदी ने कहा- हमें स्थानीय सरपंच पति वाला सिस्टम नहीं चाहिए, जो अपनी पत्नी के बदले सारा काम करता हो। रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में मां हिराबेन से मिलने पहुंचे।

**किससे के जरिए बताया एसापी का लालबा**

प्रधानमंत्री ने महिला सरपंचों से कहा- हमें सबसे पहले स्थानीय कि सरपंच पति वाला सिस्टम खत्म करना होगा। उन्होंने यह बात सरपंच पतियों के कामकाज में पतियों की कथित दखलअंदाजी के बारे में कही। एक घटना के बारे में कहा- एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि वह एसापी (सरपंच पति) है। यह अक्सर होता है कि महिला सरपंचों के कामों में उनके पति का भी दखल होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें इस संस्कृति को खत्म करना होगा। उन्हें (महिलाओं



को) अवसर दिया जाना चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शुक्रवार में सरपंचों को गुजराती भाषा में संबोधित करते हुए मोदी ने कहा- केम छो (कैसे हो?)। इसके बाद उन्होंने विशेष रूप से गांव के लोगों का अभिनंदन किया और कोरोना काल में गांववालों की जल्द की तारीफ की।

**कोरोना से लड़ने गुजरात के गांवों ने अपने नियम बनाए**

मोदी ने आगे कहा- इतनी जबर्दस्त महामारी कोरोना आई, जिससे पूरी दुनिया की हालत खराब कर दी। अन्य जगहों की तरह कोरोना गुजरात के गांव-गांव तक भी पहुंचा, लेकिन गांववालों से कोरोना जीत नहीं सका।

क्योंकि, गांव वालों ने इससे लड़ने के लिए खुद नए-नए नियम बनाए। जो लोग गांव से बाहर थे, उन्हें बाहर रखा। जो अंदर थे, उन्हें अंदर ही रखा। गांव वालों ने खुद ही एक अद्भुत व्यवस्था बनाई और कोरोना जैसी महामारी को गांव में घुसने नहीं दिया। इसके लिए गांववालों का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ।

**गांव के लोगों ने देश का अन्न भंडार भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी**

मोदी ने आगे कहा- कोरोना काल में पूरी दुनिया थम गई थी। लेकिन, गांव के हमारे भाई-बहनों ने इस दौरान भी खेती-किसानी की और देश के अन्न

**पहले 9 किमी का रोड शो भी किया**



पीएम मोदी एयरपोर्ट से 9 किमी लंबे रोड शो के बाद भाजपा ऑफिस कमलाम में मीटिंग के लिए पहुंचे थे। सरपंच सम्मेलन में करीब डेढ़ लाख लोग शामिल हुए। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है, जब मोदी गुजरात में किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा को जीत के बाद गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश चमक पर दिखाई दिया।

भंडार को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए गांववालों-बहनों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में अपने परिवार को देखरेख के साथ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में उनका सहयोग किया। मोदी ने आगे कहा- यह बापू की भूमि

है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर गांव, मजबूत और सक्षम गांव की बात की। ग्रामीण विकास बापू का सबसे महत्वपूर्ण सपना था। क्योंकि, लोकतंत्र की शक्ति ग्राम व्यवस्था में भी देखने को मिलती है। इसलिए हम बापू के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

## भगवंत मान पंजाब के लोगों की उम्मीदें पूरी करेंगे : केजरीवाल

एजेन्सी

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भगवंत मान एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा, मेरा छोटा भाई भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। आज वे शपथ ग्रहण का न्यूता देने मेरे घर आए। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवंत एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री



पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो किया जाएगा जिसमें श्री केजरीवाल भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की है।

**केजरीवाल ने जानबूझकर रोका एमसीडी के विकास कार्यों का फंड : स्मृति**

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विकास कार्यों का फंड जानबूझकर रोका। ईरानी ने शुक्रवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री केजरीवाल एमसीडी में सुधार नहीं चाहते इसलिए पिछले सात वर्ष के अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में एमसीडी का फंड रोक दिया, जिनसे



की सबसे महत्वपूर्ण इकाई निगमों के काम को न रोके जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। अगर वह लोकतंत्र का समर्थन करते हैं तो निगमों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द करें। उन्होंने कहा कि यह हास्यास्पद है कि श्री केजरीवाल की जिस आम आदमी पार्टी (आप) को उत्तर प्रदेश में नोटा से भी कम वोट मिले, उत्तराखंड में उनके उम्मीदवारों की जमानतें जूब हुईं, गोवा में छह फीसदी से भी कम वोट मिले, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं।

## कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या फिर बढ़ी

**कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5.15 लाख हो गई है**

एजेन्सी

नयी दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट के बीच पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 255 मरीजों की मौत हो गयी जबकि इससे एक दिन पहले यह संख्या 104 थी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,194 मामले सामने आये हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 4.29 करोड़ हो गई है। इसी दौरान 6,208 मरीजों ने कोरोना को मात दी है जिसके साथ ही कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या बढ़कर 4.24 करोड़ हो गई। इस बीच सक्रिय मामलों में 2,269 की गिरावट आने के साथ ही इनकी संख्या अब 42,219 रह गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5.15 लाख हो गई है। देश में कोरोना की रिकवरी दर 98.70 प्रतिशत हो गयी है और सक्रिय मामलों की दर 0.10 फीसदी रह गयी है जबकि मृत्यु दर अभी 1.20 प्रतिशत है।



**कोविड टीकाकरण 179.89 करोड़ से अधिक**

नयी दिल्ली। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के 420वें दिन शुक्रवार को 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाये गये। इसके साथ ही कोविड टीकाकरण 179.89 करोड़ से अधिक हो गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देर शाम यहां बताया कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत आज शाम सात बजे तक 179 करोड़ 89 लाख 47 हजार 302 कोविड टीके लगाये जा चुके हैं। आज 16 लाख 14 हजार 169 कोविड टीके दिये गये। आंकड़ों में बताया गया है कि 96 करोड़ 68 लाख 47 हजार 920 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गयी है, जबकि 81 करोड़ नौ लाख 55 हजार 531 को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण देर शाम तक जारी रहा, इसलिए अंतिम संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।

6,966 रह गए हैं। इस दौरान राज्य में 494 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 77,19,594 हो गयी। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 143749 तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में इस दौरान सक्रिय मामलों 227 घटकर 1,676 रह गये हैं। वहीं 354 लोगों के स्वस्थ होने के बाद इस महामारी से मुक्त होने वालों की कुल संख्या 34,11,899 हो गई है,

जबकि दो मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा 38,023 हो गया है। कर्नाटक में सक्रिय मामलों की संख्या 91 घटकर 2,884 रह गई है। इस दौरान 301 मरीजों के ठीक होने से इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 39,00,428 हो गई है। वहीं राज्य में सात और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 40013 पर पहुंच गया है।

## गाजियाबाद में महिला अधिवक्ता को गोली मारी

गाजियाबा। गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक महिला अधिवक्ता को गोली मार दी गई। गोली कनपटी से लगकर आंख को चिरेते हुए पार हो गई। घायल को यशोदा हॉस्पिटल नेहरूनगर में एडमिट कराया है, जहां हालत नाजुक बनी है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि 24 लाख रुपए के लेनदेन में एक दुकानदार के द्वारा गोली मारी गई है। पुलिस विस्तृत पड़ताल में जुटी हुई है। सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में राधा कृष्णा कुंज। 117-73 निवासी स्वेता सहगल पेशे से अधिवक्ता हैं। शुक्रवार शाम करीब साढ़े 7 बजे स्वेता अपनी महिला मित्र एवं देवराणी के साथ नमित जैन और सुमित जैन की दुकान

पर आई थीं। ये दोनों व्यक्ति नगर कोतवाली क्षेत्र में गंदा नाला के नजदीक थोक कारोबारी हैं। पुलिस के अनुसार, स्वेता और इन दोनों लोगों के बीच 24 लाख रुपए का लेनदेन चल रहा है। स्वेता आज रुपए लेने के लिए दुकान पर गई थीं। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर स्वेता ने नमित को थपड़ मार दिए। इसके बाद तैश में आकर नमित ने स्वेता की कनपटी पर गोली मार दी। यह गोली कनपटी से आंख को चिरेते हुए पार हो गई। गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई। आरोपी दुकान बंद करके फरार हो गए।

यौन शोषण

छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाए अश्लील नैसेज-वीडियो भेजने के आरोप

## भोपाल की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यौन शोषण

भोपाल। भोपाल की नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में छात्राओं से यौन शोषण का बड़ा मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की 100 से ज्यादा छात्राओं ने डीन प्रो. तपन रंजन मोहंती पर अश्लील नैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। मामला मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान तक पहुंच गया है। उनके दखल के बाद कुलपति प्रो. विजय ने जांच बैठा दी है। लॉ यूनिवर्सिटी ने आरोप के संबंध में हाईकोर्ट मप्र के चीफ जस्टिस रिज मल्लिथ को भी सूचना भेज दी है।

कुलपति ने कहा कि पहली बार ऐसी शिकायत मिली है। लड़कियों



को स्पष्ट संख्या अभी नहीं बताई जा सकती। जांच के आधार पर ही कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

छात्राओं ने इस मामले को लेकर गुरुवार को कैंपस में प्रो. मोहंती के ऑफिस में हंगामा भी किया। हंगामे के

जांच के आदेश दिए हैं। छात्राओं को अकेले में बुलाने का आरोप

प्रोफेसर मोहंती 23 साल से NLIU में कार्यरत हैं। आरोप है कि ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान प्रो. मोहंती अकेले में छात्राओं को बुलाते थे। इसके बाद अश्लील नैसेज और वीडियो छात्राओं को भेजते थे। छात्राओं का दावा है कि उनके पास सबूत के तौर पर वो नैसेज और वीडियो मौजूद हैं। पीडित छात्राओं की शिकायत पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मामले में जांच की और प्रो. मोहंती को दोषी मानकर उनसे इस्तीफा मांगा

था। साथ ही कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। जिसके बाद प्रो. मोहंती ने डीन, डिस्टेंस एजुकेशन और इंचार्ज अकादमिक ब्लॉक-1 के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले में सीएम शिवराज ने दिखाई सख्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि छात्र-छात्राओं से दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर प्रकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के न्यायाधीश से भी चर्चा की जाएगी।

## शार्ट न्यूज

### जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में मादक पदार्थ तस्क़र को किया गिरफ़्तार

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में एक ग्राम स्तर कार्यकर्ता (वीएलडब्ल्यू) को मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार कर उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि फुरेवार रात करीब साढ़े आठ बजे मादक पदार्थ तस्क़र को गिरफ्तार किया गया। उसकी पहचान कश्मीर के सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा के काबिरी गांव के वीएलडब्ल्यू गुलजार अहमद बाबा के रूप में की गई है। पुलिस ने जांच के दौरान उसके पास से 21 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। शुरुआती जांच में गुलजार ने खुलासा किया कि वह कम मात्रा में नशीला पदार्थ को कुपवाड़ा के युवाओं को बेचने जा रहा था। मादक पदार्थ तस्क़रों के गिरोह का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गुलजार जाना माना मादक पदार्थ तस्क़र है, जो सरकारी नौकरी को आड़ में इलाके में चोरी-छिपे नशीले पदार्थों की तस्करी करता था।

### सेना का हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट शुक्रवार को सेना का एक चीता हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक पायलट की मौत हो गयी और एक पायलट घायल हो गया। चीता हेलिकॉप्टर दोपहर में सीमा सुरक्षा बल के एक बीमार जवान को लेने जा रहा था, तभी यह बांदीपुरा जिले में बरोम गुरेज के गुरेज सेक्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक अधिकारी ने कहा कि हेलिकॉप्टर दुर्घटना में एक पायलट की मौत हो गयी है और एक पायलट घायल हो गया है। घायल पायलट को चिकित्सा केन्द्र ले जाया गया है। उन्होंने कहा, दुर्घटना के कारणों की तक्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि देश में पिछले पांच वर्षों में कम से कम पांच चीता हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं।

### मुख्यमंत्री केसीआर को मिली अस्पताल से छुट्टी

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव शुक्रवार को अस्वस्थ होने पर उन्हें एक कॉर्पोरेट अस्पताल में उपचार किया गया और डॉक्टरों ने उनकी परीक्षण रिपोर्ट को देखने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। राव को बाएं हाथ में दर्द और कमजोरी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने उनको कुछ परीक्षण कराने की सलाह दी और बाद में उनका ईसीजी, 2डी ईसीएचओ और एमआरआई कराया गया। मुख्यमंत्री को बाद में जांच करने वाले डॉक्टरों की टीम ने कहा कि उनके हृदय की रिपोर्ट, बलड प्रेसर और शुगर की रिपोर्ट ठीक है। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को एक सप्ताह के लिए पूर्ण आराम की सलाह दी है। राव को परीक्षण रिपोर्ट ठीक आने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, बाद में वह के कैंप कार्यालय-सह-आधिकारिक अवास प्रगति भवन पहुंचे।

### धामी सहित मंत्रिमंडल ने जताया जनता और केंद्रीय नेतृत्व का आभार

देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमण्डल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचण्ड बहुमत का जनादेश प्रदान करने पर राज्य की जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। धामी ले विधानसभा चुनाव में भाी बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के लिए भी हार्दिक धन्यवाद ज़ापित किया है। धामी एवं मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों ने राज्य में संचालित हो रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिये मोदी एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चारधाम सड़क परियोजना, चारधाम रेल नेटवर्क, श्रीकेदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना, भारद्वाज सड़क परियोजना सहित प्रदेश हित में एक लाख करोड़ से अधिक धनराशि की विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति देने एवं उन्हें प्रारंभ करने हेतु भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने जन कल्याणार्थ राज्य में संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए मंत्रिमण्डल के सहयोगियों, विधायकगणों, प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से भाजपा की सरकार राज्य को देश का आदर्श राज्य बनाने के संकल्प को पूरा करेगी।

### खड़गपुर में भाजपा कार्यालय जलकर खाक

खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर मेदिनीपुर में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय में भीषण आग लगने से जलकर खाक हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि भाजपा कार्यालय में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी और कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने एक घंटे के भीतर कड़ी मशक़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि कार्यालय में आग लगने से सभी आधिकारिक दस्तावेज, टीवी, फ़ंखा, फर्नीचर तथा कुर्सी जलकर खाक हो गयी हैं। स्थानीय सांसद एवं पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष यहाँ भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सप्तादल तृणमूल कांग्रेस पर आग लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के पास सभी नगरपालिका और मूल्यवान दस्तावेज स्थानीय वार्ड पार्षद अनुरंजी बेहरा हैं, जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। घोष ने दावा किया कि भाजपा के चार रज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड तथा गोवा में चुनाव जीतने से राज्य सत्तारूढ़ पार्टी बौखला गयी है, जिसके कारण उन्होंने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। घोष के दावे के बाद भाजपा पार्षद ने उनसे मुलाकात की और बताया कि इस आग में स्थानीय लोगों से संबंधित प्रमुख दस्तावेज तथा पार्षद संबंधित सभी दस्तावेज जलकर खाक हो गए है। आग इतनी भयावह थी कि कार्यालय की दीवारें पूरी तरह चटक गयी है। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि श्री घोष के आरोप को खारिज किया है।

### अन्नाद्रमुक नेता जयकुमार को तीसरे मामले में भी जमानत

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डी जयकुमार को जमीन हड़पने के एक मामले में शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी। पूर्व मंत्री जयकुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.डी. जगदीस चंडीरा ने उन्हें दो सप्ताह के लिए तिरुचि में रहने और छवनी पुलिस के समक्ष सप्ताह में तीन दिन - सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति चंडीरा ने श्री जयकुमार को चेन्नई में अगले आदेश तक हर सोमवार को केंद्रीय अपराध शाखा के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया है। जयकुमार ने अपने आवेदन में चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मंगेश कुमार का इस्तेमाल कर मामले में उन्हें 'झूठा फंसाया' गया है। उनके दामाद नवीन कुमार के भाई मंगेश कुमार की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति है जिसे हड़पने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही जयकुमार को उनके खिलाफ दायर तीनों मामलों में जमानत मिल गई है। इसके अलावा उन पर द्रमुक के एक कार्यकर्ता की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है जो 19 फरवरी को स्थानीय निकाय चुनाव के दिन अंजाम दिया गया था। इसके अलावा चुनाव के दिन सड़क जाम आंदोलन को अंजाम देकर कोरोना वायरस फैलाने का भी आरोप है। उन्हें इन दोनों मामलों में पहले ही जमानत मिले गयी थी।

### गोवंश सड़क पर छोड़ने पर होगी सज़ा : कंवर

शिमला। हिमाचल के पशुपालन एवं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गोवंश सड़कों पर छोड़ने वालों के लिये सज़ा का प्रावधान किया जाएगा ताकि कोई ऐसा न कर सके। कंवर ने राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी देते हुये बताया कि इस सम्बंध में सरकार एमिनल एक्ट 1871 के निर्णामों में संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि दो माह में सभी गोवंश को टैग लगाने का काम पूरा होगा। अभी यह कार्य 85 फीसदी तक पूरा किया गया है। केंद्र सरकार से इस सम्बंध में मंजूरी मिल गई है। उन्होंने प्लास्टिक कचरा को लेकर भी नीतिगत फैसला लिया जाएगा।

# दोबारा होगा फलस्तीन में भारत के राजदूत का पोस्टमार्टम

दिल्ली। मुकुल आर्या की मौत पर उनके परिवार द्वारा संदेह व्यक्त करने के बाद भारत ने उनके शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया है. आर्या का शव अभी तक भारत लाया नहीं गया है.मुकुल आर्या की मौत का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है. उनके परिवार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय ने अदालत को बताया कि वो आर्या के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा. गुरुवार 11 मार्च को आर्या की मां ने



दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपने बेटे की मौत के संदेहजनक हालात की जांच करवाने की अपील की. उन्होंने आर्य के शव के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली स्थित एम्स

अस्पताल के डॉक्टरों का एक पैनाल गठित करने की भी मांग की।

### फलस्तीन में भारत के राजदूत की रहस्यमयी हलालत में मौत

दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु 37 वर्षीय आर्या 2008 में ही भारतीय राजनयिक सेवा से जुड़े थे. उन्होंने जून 2021 में फलस्तीन के रमल्ला स्थित भारतीय दूतावास में कार्यभार संभाला था और छह मार्च 2022 को वो दूतावास के अंदर ही मृत पाए गए थे. उनके शव का पोस्टमार्टम वहीं कराया गया

जिसके बाद फलस्तीन के न्याय मंत्रालय ने कहा कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। याचिका में अदालत को बताया गया कि आर्य ने अपने परिवार के सदस्यों से आखिरी बार तीन मार्च को बात की थी. उसके बाद छह मार्च तक परिवार को उनको कोई खबर नहीं मिली और फिर सीधा उनके मृत्यु की बारे में पता चला। याचिका में कहा गया है कि इसके बाद उनके परिवार ने उनकी मृत्यु के पीछे कुछ गड़बड़ी होने का आरोप लगाते

हुए भारत सरकार के अधिकारियों को कई बार संदेश भेजे लेकिन परिवार को सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।

### तो क्या पेगासस या मोदी और नेतन्याहू की करीबी का कारण

हालांकि सुनवाई के दौरान परिवार के वकील ने कहा कि इस समय वो जांच पर जोर नहीं दे रहे हैं और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से संतुष्ट हो जाएंगे. इसके बाद न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने सरकार को कहा कि वो

वीडियोग्राफी सुनिश्चित कराए और उसे दस्तावेजों में शामिल करें. फलस्तीन में भारत आर्या ने फलस्तीन से पहले अफगानिस्तान में भारतीय उच्चायोग, रूस में भारतीय दूतावास और फ्रांस में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल में काम किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और सिंगापुर के ली कुआं यू स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ाई की थी. फलस्तीन में भारत का पूर्ण दूतावास नहीं है।

# चुनाव नतीजों के बाद त्रिपुरा में हिंसा

अगरतला। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद कथित तौर पर विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस पर जुबानी हमले तेज किए हैं। माकपा के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थकों ने विजय जुलूस में पश्चिम त्रिपुरा और दलाई जिलों में पार्टी के कम से कम तीन कार्यालयों में आग लगा दी और कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है। माकपा की राज्य समिति के सदस्य पवित्र कार सहित कम से कम पांच लोगों घरों पर भी हमला बोला गया और तोड़फोड़ की गई।



कराया गया। भाजपा पार्टी ने कई स्थानों पर विपक्ष पार्टियों के निर्दोष समर्थकों को प्रताड़ित किया और उन्हें भाजपा पार्टी को मोटी रकम देने का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा, यह पूरी तरह से अराजकता है और राज्य में कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हमारे नेताओं ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। इस बार ज्यादातर घटनाओं में पुलिस ने तत्काल जवाबी कार्रवाई और जिसके फलस्वरूप बदमाश भाग गए और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके।

इस पर अभी तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री की ओर से अन्य राज्यों में उनकी चुनावी सफलता के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ एक भी बयान सामने नहीं आया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणामों का त्रिपुरा में आगामी विधान सभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा में वर्ष 2023 में चुनाव होंगे। श्री चौधरी ने हिंसा रोकने और विपक्षी दलों को अपनी गतिविधियां करने की अनुमति देने की मांग की।

# तटस्थक दल ने श्रीलंकाई नाव और चालक दल के पांच सदस्यों को पकड़ा

चेन्नई। भारतीय तटरक्षक दल (आईसीजी) ने मन्नार की खाड़ी में समुद्र-वायु समन्वित शिकार विरोधी अभियान में श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव और उसके चालक दल के पांच सदस्यों को पकड़ा है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में शुक्रवार को यहां कहा गया कि मछली पकड़ने वाली नाव अजंता पुथा –2 को चालक दल के पांच सदस्यों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए पकड़ा गया। नाव और चालक दल के सदस्यों को आठ मार्च को पकड़ा गया था। मन्नार की खाड़ी में समुद्री निगरानी करते हुए विमान ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर एक श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव की उपस्थिति की सूचना दी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आईसीजी जहाज वज्र को श्रीलंकाई नाव को रोकने के लिए भेजा गया। पोत ने सूचित स्थिति के निकट अपने राडार पर कन्याकुमारी

से लगभग 120 समुद्री मील दक्षिण में नाव का पता लगाया। आईसीजी जहाज को देखते ही नाव पर सवार लोगों ने भागने की कोशिश की, हालांकि, आईसीजीएस वज्र ने भारतीय ईईजेड के अंदर 48 समुद्री मील की दूरी पर श्रीलंकाई नाव को मछली पकड़ने के जाल के साथ पानी वाली नाव अजंता पुथा –2 को चालक दल के पांच सदस्यों के साथ भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए पकड़ा गया। नाव और चालक दल के सदस्यों को आठ मार्च को पकड़ा गया था। मन्नार की खाड़ी में समुद्री निगरानी करते हुए विमान ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर एक श्रीलंकाई मछली पकड़ने वाली नाव की उपस्थिति की सूचना दी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आईसीजी जहाज वज्र को श्रीलंकाई नाव को रोकने के लिए भेजा गया। पोत ने सूचित स्थिति के निकट अपने राडार पर कन्याकुमारी

# पंजाब के लोगों ने एक अच्छा निर्णय लिया : सिद्धू

एजेंसी अमृतसर। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा चुनावों को लेकर शुक्रवार को कहा कि वह पंजाब के लोगों को नई व्यवस्था शुरू करने के इस बेहतर तरीके को सपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव की राजनीति है। उन्होंने कहा, लोगों की आवाज ईश्वर की आवाज है। हमें विनम्रता से इसे समझना चाहिए और इसके आगे झुकना चाहिए। लोगों के साथ मेरा जुड़ाव सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक और दिल का है। लोगों के साथ मेरा रिश्ता चुनावी जीत-हार तक सीमित नहीं है। मैं पंजाब के लोगों में ईश्वर और उनके कल्याण में अपना कल्याण देखता हूँ।



था, पर कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। लालचो, ढोंगी मुख्यमंत्री, जिसकी बादलों के साथ सांझ थी, उससे मैंने लड़ाई लड़ी, उसे कुर्सी उतारा। उनका इशारा केप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ था। उन्होंने कहा,आप को हमने मौका नहीं देना, लोगों ने उन्हें पांच साल के लिए मौका दिया है। वक्त बालाएगा कि आगे आप की परफार्मेंस क्या रहती है। उल्लेखनीय है कि श्री सिद्धू मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए आतुर थे, लेकिन कांग्रेस से नेता बने श्री सिद्धू ने श्री चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया था। श्री सिद्धू अमृतसर (पूर्व) सीट से आम नवजोत सिंह (आप) की जीवन्मृत्योत कोर से 6,000 से अधिक मतों के अंतर से हार गए। उन्हें जहां 32,929 वोट मिले, वहीं सुश्री कौर को 39,520 वोट मिले। फिक्रेटर से नेता बने श्री सिद्धू ने पहले भाजपा के टिकट पर अमृतसर से तीन लोकसभा चुनाव जीते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में, उन्होंने अमृतसर पूर्व सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 42,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की।

# नैनीताल - यशपाल आर्य की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा संजीव आर्य को ले डूबी

नैनीताल। चौबे जी छब्रे बनने के लिये गये लेकिन दुबे बन गये, यह कहावत कांग्रेस नेता यशपाल आर्य पर सटीक बैठती है। मुख्यमंत्री बनने की महात्वाकांक्षा उनके सुपुत्र संजीव आर्य के भविष्य को ले डूबी। श्री आर्य, पुष्कर सिंह धामी की सरकार में केबिनेट मंत्री के पद पर थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर स्वयं श्री आर्य और उनके सुपुत्र संजीव आर्य 2017 में बाजपुर और नैनीताल विधानसभा सीटों से विधायक बने। संजीव आर्य की राजनीति में यह पहली पारी थी। भाजपा सरकार ने भी उन्हें एक विधायक के बतौर पूरी मदद की। वर्ष 2016 में श्री आर्य मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत से तंग आकर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में वह 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने सुपुत्र को भी टिकट दिलाने में

# नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी को उकैकेट

पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आज आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के परसा बाजार थाना क्षेत्र स्थित महुआबाग गांव के निवासी लोरीक कुमार को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि प्राप्त होने मृत पीड़िता के आश्रितों को दी जाएगी। इसके अलावा अदालत ने मृत पीड़िता के आश्रितों को सात लाख 50 हजार रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी सरकार को दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि मामला वर्ष 2014 का है।

# धामी कांग्रेस प्रत्याशी कापड़ी से दस चरणों में से आठ चरणों में बुरी तरह पिछड़े



नैनीताल। निवर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में बेशक दुबारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने में सफल रहे हैं लेकिन अपने गढ़ खटौती में वह सीट बचाने में नाकामयाब रहे। दस चरणों में से आठ चरणों में मिले मतों में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने उन्हें जबर्दस्त तरीके पछड़ा और सिर्फ दो चरणों में ही वह आगे रह सके। चुनाव आयोग से मिले अंतिम आंकड़ों के अनुसार श्री सिंह धामी खटौती में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से पहले चरण में ही पिछड़ गये थे। पहले चरण में जहां उन्हें 3985 मत मिले वहीं हजार रुपए प्रत्याशी श्री कापड़ी को 4876 मत मिले। सिर्फ दूसरे और दसवें चरण में वह आगे रहे, बाकी आठ चरणों में लगातार पिछड़े रहे।

पांचवें चरण में श्री धामी को 2908 तो श्री कापड़ी को 4702, छठवें चरण में भाजपा प्रत्याशी को 4059 तो कापड़ी को 5158, सातवें चरण में श्री धामी को 4279 तो कापड़ी को 5648, आठवें चरण में भाजपा प्रत्याशी को 4858 तो श्री कापड़ी को 5241, नौवें चरण में मुख्यमंत्री के बतौर श्री धामी को 4079 तो कांग्रेस प्रत्याशी कापड़ी को 4372 की बढ़त मिली। डाक मतपत्रों का जहां तक हिसाब है तो कांग्रेस प्रत्याशी को श्री धामी पछड़ने में कामयाब रहे और श्री धामी को 923 तो श्री कापड़ी को 551 मत प्राप्त हुए। कुल मिलकर श्री धामी को कुल 41598 और कांग्रेस प्रत्याशी को 48177 मत हासिल हुए, जिससे उन्हें 6579 मतों के बड़े अंतर हार का सामना करना पड़ा।

# पावर ट्रांसमिशन कंपनी का राज्य लोड डिस्पैच सेंटर राष्ट्र की 'धरोहर'

एजेंसी नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इस सिस्टम के लागू अब अनुमोदित होने के बाद अठ मध्यप्रदेश की जनता को किसी साइबर अटैक के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा प्रणाली को मान्यता देने के लिए केन्द्र सरकार की मुंबई स्थित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केन्द्र दिल्ली ने इसे मध्यप्रदेश के गजट में

नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इस सिस्टम के लागू अब अनुमोदित होने के बाद अठ मध्यप्रदेश की जनता को किसी साइबर अटैक के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा प्रणाली को मान्यता देने के लिए केन्द्र सरकार की मुंबई स्थित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केन्द्र के साथ 15 बैठकें हुईं। इसके बाद यह सफलता मिली है।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के मुख्य अभियंता इंजी. के.के.प्रभाकर ने बताया कि पावर सेक्टर में भारत सरकार के नियमों में अब प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर की साइबर सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भी दिशा-निर्देश दिए जायेंगे। लोड डिस्पैच सेंटर अब राष्ट्र की धरोहर के रूप में अपना कार्य करेगा। राज्य लोड डिस्पैच की चार प्रणालियाँ स्काड, रिज्यूवल इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, युनिफाइड रियल टाइम डायनामिक सिस्टम तथा वेब आधारित इन्जी शोर्ड्रिंग सिस्टम

इस साइबर सुरक्षा प्रणाली से पाबंद रहेंगे। केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बाद प्रदेश के बिजली तंत्र के लिए सुरक्षा की दोहरी प्रणाली रहेगी। हनी पोत डिवाइस से इस प्रणाली को साइबर अटैक से और सुरक्षित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के कानून के तहत अब लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणाली में कोई इंटरनेट के जरिये छेड़छाड़ या हैकिंग जैसा कुछ प्रयास करता है तो इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला माना जायेगा। साथ ही उसके विरूद्ध इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कार्यवाही की जायेगी।

# पत्रिका के स्थापना दिवस पर चंग रो धमाल कार्यक्रम का आयोजन

अजमेर। राजस्थान के प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर आज यहाँ सूचना केन्द्र के खुले आयोजन पर ..चंग रो धमाल.. का आरंभ किया गया। मरुधरा की संस्कृति से सरोबर इस कार्यक्रम का आगाज गणेश वंदना से हुआ। कार्यक्रम में राजस्थानी रंगों की छटा देखते ही बन रही थी। कार्यक्रम धीरे धीरे खचाखच भरे रंगमंच को रोमांचित कर रहा था। पत्रिका परिवार की ओर से मंच पर कलाकारों पर तथा दर्शक दीर्घा में पुष्प वर्षा की गयी तो माहौल और ज्यादा पत्रिका के प्रति लगाव को रेखांकित करने लगा।

का फायदा कांग्रेस पार्टी ने उठया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उनसे पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी। चुनाव नजदीक आते ही कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्री आर्य को अनुसूचित मुख्यमंत्री के पद का ख्वाब दिखा कर रेंड कारपेट पर चलने का न्योता दे दिया। यही कारण है कि श्री रावत भी कई मौकों पर दबी जुबान ही सही प्रदेश में अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री को बागडोर देने की बात करते दिखे। श्री आर्य की मुख्यमंत्री बनने की महात्वाकांक्षा यहीं से हिलोरें लेने लगी और उन्होंने आव देखा न ताव और पिछले साल अक्टूबर में भाजपा को न केवल तिलांजलि दे दी बल्कि चुनाव से छह माह पहले ही केबिनेट मंत्री के पद के साथ ही विधायक बेटे को भी त्यागपत्र दिला कर कांग्रेस का दामन थाम लिया।

उन्होंने के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस पार्टी को तो कुछ हद तक फायदा हुआ। मरणसन्न कांग्रेस में कुछ आग यगी लेकिन श्री आर्य की व्यक्तिगत रूप से फायदा होने के बजाय नुकसान हो गया। श्री आर्य मोदी लहर को भांपने में नाकाम रहे। वर्तमान विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर विमान करना पड़ा। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई सरिता आर्य ने उन्हें 7918 मतों से चुनाव हार दिया। नैनीताल विधानसभा में भी अठक की की बड़ी हार है। पिता-पुत्र की ओडी के दल बदलने के रवैये से तब लोग खासे नाराज दिखे। लोगों ने इसे अवसर्वादिता करार देते हुए दोनों दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। चुनाव

में लोगों ने उनसे खूब फायदा उठया लेकिन मत मोदी के नाम पर दिया। यही कारण है कि न केवल संजीव आर्य हारे बल्कि खुद यशपाल आर्य को भी बाजपुर से इस बार लाले पड़ते दिखायी दिये। वह हारते-हारते बचे। भाजपा के राजकुमार से वह मात्र 1611 मतों से आगे रहे। यह हाल तब है जब संजीव आर्य ने बतौर भाजपा विधायक नैनीताल में अच्छा कार्य किया और एक अच्छे विधायक की छवि कायम की। संजीव आर्य के हारने और कांग्रेस की बुरी तरह हार से श्री आर्य के खेमे में खुशी के बजाय गम का माहौल है। राजनीतिक जानकार भी श्री आर्य के खेमे बदलने के निर्णय को अदृदर्शी मान रहे हैं। आम लोगों का भी यही मानना है कि मुख्यमंत्री की महात्वाकांक्षा आर्य पुत्र को ले डूबी।

## शार्ट न्यूज

### स्निफर डॉग की मदद से हत्या के मामले को सुलझाया

**नई दिल्ली ।** पश्चिम विहार इंस्ट पुलिस ने लुटपाट के विरोध में एक शख्स की हत्या और दूसरे को घायल करने के मामले में आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस वारदात को सुलझाने में स्निफर डॉग की मदद ली। साथ ही सीसीटीवी फुटेज से भी सहायता मिली। जानकारी के अनुसार, 22 फरवरी को पश्चिम विहार इंस्ट स्थित डीडीए पार्क में खून से लथपथ एक शख्स का शव बरामद किया गया था। इसी समय एक अन्य पार्क में चौकीदार संतोष कुमार खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। दोनों वारदात में एक ही शख्स के होने का अंदेश लग रहा था। घायल संतोष ने पुलिस को बताया कि लुटपाट के लिए उस पर हमला किया गया था। उसने बताया कि हाथपाई में हमलवार का मफलर मौके पर गिर गया। इसएचओ मनोज कुमार को टीम ने जांच शुरू की लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जांच में मदद के लिए स्निफर डॉग मिमी को हैंडलर कांटेबल ललित के साथ बुलाया। मिमी ने हमलावर के मफलर को सूंघा और एक दिशा में चल पड़ी। हैंडलर के अनुसार, इसी रास्ते पर हमलावर गया था। पुलिस को इस रास्ते पर आगे बढ़ने पर मृतक का आईडी कार्ड भी मिला, जिससे उसकी पहचान सुरेश कुमार के तौर पर हुई। रास्ते के कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी के ठिकाने को ढूंढ निकाला और उसे धर दबोचा। आरोपी की पहचान कमल के तौर पर हुई। कमल ने पांच मार्च को उत्तम नगर में भी एक शख्स से फोन और नकदी लूटी थी।

### रेलवे में मेगा सुरक्षा अभियान की शुरुआत

**नई दिल्ली ।** उत्तर रेलवे में मेगा सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत खामियों की पहचान कर तुरंत सुधारने का कार्य किया जाएगा। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेक प्रणाली, इंजनों, डिब्बों और वैगनों में किसी भी तरह की कमी और अनियमितता को दूर करना इस मेगा अभियान का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रेल सेक्शनों का निरीक्षण किया जा रहा है। विशेषकर व्यस्त रेल मार्गों पर गहन अभियान चलाया जा रहा है। रात में ट्रेक पर गश्त की जा रही है। सही और सुरक्षित समायोजन के लिए प्लांटों और क्रासिंगों की जांच की जा रही है। चल-स्टॉक यूनिटों, मालभाड़ा डिपो और माल गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी चल स्टॉक परिसम्पत्तियों के अनुसूची की निगरानी की जा रही है। फायर आडिट और ड्रिल किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग द्वारा स्टेशनों की यांत्रिक इंटरलॉकिंग को बदला जा रहा है। कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए नियमित रूप से संगोष्ठी आयोजित की जा रही है।

### पड़ोसी प्रेमी पर वीडियो वायरल करने का आरोप

**दनकोर ।** बिलासपुर कब्बा निवासी युवती ने पड़ोसी प्रेमी पर अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। बिलासपुर कब्बा निवासी एक युवती का आरोप है कि उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक किशोर ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। इससे उसकी छवि खराब हुई है। पुलिस ने आरोपी नाबालिग किशोर और उसके भाई को हिरासत में लिया है। पीड़िता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

### राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज

**नोएडा ।** सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत सुबह 10 से शाम पांच बजे तक चलेगी। लोक अदालत में चाहन संबंधित चालानों का निस्तारण भी करा संकेंगे। लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। डीसीपी यातायात गणेश शाहा का कहना है कि लोक अदालत के बारे में सभी पीड़िता पड़े चालानों से संबंधित वाहन मालिकों को सूचना भेज दी गई है।

### साइबर अपराधों को लेकर जागरूकता

#### कार्यक्रम का आयोजन

**नोएडा ।** साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को खेतान पब्लिक स्कूल में नोएडा पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस उपायुक्त राजेश एस ने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया और टीगी से बचने के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। इसमें एडीसीपी महिला सुरक्षा अंकिता शर्मा व स्कूल की प्रधानाचार्या रीना सिंह सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे।

### चोरी की स्कूटी सहित एक वाहन चोर गिरफ्तार

**नोएडा ।** फेस तीन थाना पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चोर बिहार निवासी अमरजीत सिंह को पर्थला गोल चक्र के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक स्कूटी बरामद हुई है। थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी अमरजीत के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं।

### गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी दबोचा

**नोएडा ।** सेक्टर 39 थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक सूचना के आधार पर महामाया फ्लाईओवर के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी शाहजहांपुर निवासी रामकुमार को गिरफ्तार किया है। वह वर्तमान में न्यू अरुंधत नगर में रह रहा था। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सेक्टर-20 थाने में अलग-अलग धाराओं में दो मुकदमे दर्ज हैं।

### स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में 50 लाख पुरस्कार मिलेगा

**गुरुग्राम ।** केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज में गुरुग्राम को विजेता के रूप में चुना गया है। गुरुग्राम को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम को अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि मंत्रालय द्वारा देश के 11 शहरों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें गुरुग्राम, औरंगाबाद, बैंगलूरु, कोची, कोहिमा, नागपुर, पिंपडी चिंचवाड़, पूना, उदयपुर, ऊजैन व विजयवाड़ा शामिल हैं। गुरुग्राम सभी शहरों में से दो नॉन-स्मार्ट सिटी में से एक है। यह पुरस्कार सदर बाजार स्ट्रीट को पैदल चलने, सुरक्षा में सुधार, समावेशीता पैदा करने और आसपास के क्षेत्र के पुर्नविकास को गति देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। मार्च 2021 में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा विभिन्न हिाधारकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ एक परीक्षण किया गया था। प्रतियोगिता के लिए सभी प्रयासों और मूल्यांकन की रिपोर्ट अक्टूबर 2021 में प्रस्तुत की गई थी। सभी विजेताओं की घोषणा मंत्रालय द्वारा की गई है।

### सेक्टर-57 में 40 से अधिक झुगियां हटाई

**गुरुग्राम ।** सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को सेक्टर-57 में अवैध झुगियां को हटाकर बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सहायक अभियंता (इंफोर्मेंट) आरके मोंगिया के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता रामपाल मान व हरिओम की टीम पुलिस बल के साथ सेक्टर-57 में पहुंची। यहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से झुगियां बनाई हुई थी। टीम ने जेसीबी की मदद से 40 से अधिक झुगियां का सफाया किया। जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई की। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल मौजूद रहा।

### एक बीघा में अफीम की फसल को नष्ट किया

पतलवा। पुलिस ने गुरुवार को गांव मित्रोल अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को नष्ट किया। लगभग एक बीघा में अफीम की खेती की फसल की जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी नारकोटिक्स सेल एवं सीआईए होडल प्रभारी निरीक्षक जंग शेर ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अंधीक्षक राजेश दुग्गल ने जिला पतलवा में मादक पदार्थ की खेती वा तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिये हुये हैं। जिनकी पालना के तहत सेल में तैनात उप निरीक्षक हनीश खान के नेतृत्व में गठित टीम दिशेद मित्रोल पुल पर मौजूद थे। जहां उन्हें सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई की गांव मित्रोल के राजवोर उर्फ राज ने बिना परमिट व लाईसंस के रेलवे लाइन दिघोटा गांव के नजदीक खेत में बरशम वा अफीम नाजायज तौर पर बो रखी है।

# निगम चुनाव टालना जनतंत्र के लिए ठीक नहीं: केजरीवाल

**नयी दिल्ली ।** आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम चुनाव टालने के दिल्ली चुनाव आयोग के फैसले पर खाल खड़े करीए कहा कि केंद्र सरकार का आयोग को चिढ़ी लिखकर चुनाव टालने को कहना और आयोग का केंद्र के सामने झुक कर चुनाव टालना, दोनों ही जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है।



केजरीवाल ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अभी चुनाव होने वाले थे। नौ मार्च को दिल्ली चुनाव आयोग ने सुबह-सुबह प्रेस को निमंत्रण भेजा कि आज शाम पाँच बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीखों का एलान करेगा। किस तारीख को नामांकन होगा, किस तारीख तक नाम वापस लिए जा सकता हैं और चुनाव किस तारीख को होंगे आदि। शाम पांच बजे चुनाव की तारीखों का एलान होने वाला था और उसके एक घंटा पहले शाम चार बजे केंद्र सरकार ने चुनाव

को एक करना था, तो पिछले सात साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखों के एलान के एक घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि तीनों एमसीडी को एक करना है, इसलिए चुनाव को टाल दिया जाए। लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को एक करना तो केवल एक बहाना है। असली मकसद तो चुनाव टालना था, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि अगर दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे, तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। उस लहर में भाजपा बह जाएगी और हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने की मंशा से यह किया गया है।

‘आप’ संयोजक ने आगे कहा कि यह भी लोग कह रहे हैं कि चुनाव का तीनों नगर निगमों को एक साथ करने से क्या लेना-देना है? आज तीन नगर निगम हैं और दिल्ली में कुल 272 वार्ड हैं। तीनों नगर निगमों के पार्षद अपने अलग-अलग नगर निगमों में बैठते हैं। चुनाव हो जाने दीजिए। अगर तीनों को एक भी कर देंगे, तो वो एक जगह बैठेंगे

लग जाएंगे। अभी चुनाव टालने की क्या जरूरत है? चुनाव कराओ। नए पार्षद आएंगे और जब तक तीनों नगर निगम हैं, तब तक वे तीनों में बैठ जाएंगे और जब एक नगर निगम हो जाएगा, तो वे एक साथ आकर बैठ जाएंगे। इसलिए चुनाव टालने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इनका मकसद तीनों नगर निगमों को एक करने का नहीं था। अगर करना होता, तो ये लोग सात साल में कर लेते। इनका मकसद केवल चुनाव टालने का था। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही चीजें अच्छी नहीं हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा, सरकारें आती-जाती रहेंगी। कल आप भी नहीं होंगे और कल में भी नहीं होंगा। हम महत्वपूर्ण नहीं हैं, लोग महत्वपूर्ण नहीं हैं, पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं हैं। देश महत्वपूर्ण है। अगर हम चुनाव आयोग को दबाव डाल कर चुनाव रद्द कराते हैं, तो इससे चुनाव आयोग कमजोर होता है और चुनाव कैसिल

होते हैं, तो देश कमजोर होता है। हम सब को मिलकर देश को रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें संस्थानों को कमजोर नहीं होने देना है। मेरी विनती है कि चुनाव कैसिल न कराइए। अगर चुनाव कैसिल होते हैं, यह जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज यह कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए। मान लो कि कल को लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले कहा जाएगा कि पार्टियांमैट्री सिस्टम अच्छा नहीं हैं, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं और संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या आप भी नहीं होंगे और कल में भी कल को कोई राज्य विधानसभा का चुनाव है और यह कहा जाएगा कि हम दो राज्यों को एक करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे। क्या जनतंत्र के अंदर ऐसे चुनाव टाले जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

### कोरोना के 11 नए मरीज आए, 21 ठीक हुए

**फरीदाबाद ।** जिले में गुरुवार को कोरोना के 11 नए मरीज आए। अच्छी बात यह है कि 21 मरीज ठीक हो गए और किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना बुलेटिन जारी कर उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव दो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। जबकि होम आइसोलेशन पर जिला में 101 मरीजों को रखा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या 103 रह गई है। जबकि कई लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिला में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए टेस्टिंग और वैक्सिनेशन पर जोर दिया जा रहा है। जिला में पिछले 24 घंटे में 1757 लोगों के टेस्ट किए गए। जिला फरीदाबाद में 1529558 लोगों ने अब तक टेस्ट करवाया गया। इनमें से 126937 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जबकि 1400868 लोग नेगेटिव मिले। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में 1504 लोगों के रिजल्ट आने बाकी है।

## जेएनयू छात्र शरजील इमाम मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस

**नयी दिल्ली ।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएए और एनआरसी के विरोध में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपपत्र तय किये जाने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली जेएनयू छात्र शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।



न्यायमूर्ति सिद्दार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति एके मेंदीरत्ता की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने शरजील को

मामले में सभी प्रासंगिक दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

### कोरोना से संक्रमित 71 नए मरीज मिले

**गुरुग्राम ।** जिले में शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित 71 नए मरीजों की स्वास्थ्य विभाग ने पहचान की। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 259978 हो गई। राहत इस बात की रही कि शुक्रवार को किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई और 74 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हो गए। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या जिले में अब 392 रह गई है। इनमें से 391 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं एक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नए संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग का सघन जांच अभियान लगातार जारी है। कोरोना जांच के लिए शुक्रवार को जिले में 4405 नमूने लिए गए। इनमें से 1600 नमूनों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट से की गई। कुल 2805 नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए एकत्रित किए गए। 1331 नमूनों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से आना अभी बाकी है। जिले में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की दर 1.61 फीसदी दर्ज की गई।

## केंद्र मरकज को पूरी तरह खोलने पर रुख स्पष्ट करे : उच्च न्यायालय

**एजेंसी**  
**नई दिल्ली ।** दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह खोलने पर अपना रुख स्पष्ट करे। उच्च न्यायालय ने पूछा है कि निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से दोबारा खोलने पर केंद्र को क्या आपत्ति है। बता दें मार्च 2020 में कोविड महामारी के बीच मरकज में तबलीगी जमात मंडली आयोजित की गई थी, तभी से मरकज बंद है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ



ने केंद्र के वकील से पीठ को यह बताने के लिए कहा है कि उन्हें इमारत की सभी मॉजिलों को फिर से खोलने में क्या आपत्ति है, जबकि अधिकारी मस्जिद की पहली मंजिल को श्रद्धालुओं के लिए नमाज अदा करने के लिए खोलने के लिए सहमत हैं।

### दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दी है अर्जी

पीठ दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मार्च और अप्रैल में शब-ए-बारात और रमजान के मद्देनख मस्जिद खोलने की मांग की गई है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने कहा कि जब कोविड-19 महामारी चरम पर थी, तब भी पूर्ववर्ती पीठ ने 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। इसके बाद एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था और मस्जिद परिसर में कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी।

पीठ ने कहा कि अगर पहली मंजिल का इस्तेमाल नमाज के लिए किया जा सकता है, तो इसके लिए दूसरी मंजिलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

## एचएसवीपी सेक्टरों की जमीने बेचकर लोगों का देगा मुआवजा

**गुरुग्राम ।** जमीन के मुआवजा राशि को लेकर एचएसवीपी का चक्र कार्टने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने सेक्टरों की जमीनों को बेच करके लोगों का मुआवजा चुकाएगा। गुरुग्राम समेत अन्य जिले के सेक्टरों की जमीनों को धड़ाधड़ नीलामी रहे रहें है। 17 मार्च को गुरुग्राम के सात सेक्टरों के प्राईमरी स्कूलों की साइटों को बेचने जा रहा है। इससे मिलने वाली राशि को

मुआवजा राशि दिए जाएंगे। गुरुग्राम में तीन सौ से अधिक लोगों का एचएसवीपी पर करीब एक हजार करोड़ रुपये मुआवजा बकाया है। पूरे हरियाणा में करीब 600 लोगों का 14 हजार करोड़ रुपये के आसपास बकाया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में शिकोहपुर, बड़ा और सीही गांव की 150 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण सेक्टर-81 से 95 तक सड़क निर्माण को लेकर किया गया था।

## यूपी चुनाव 2022 : साहिबाबाद में भाजपा की सबसे बड़ी जीत

### 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतकर सुनील शर्मा ने बनाया कीर्तिमान

**एजेंसी**  
**गाजियाबाद ।** उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत करीब नौ उम्मीदवारों ने एक लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुनील शर्मा ने दो लाख 13 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर एक नया कीर्तिमान बनाया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सात चरणों में दस फरवरी से सात मार्च के बीच हुआ और परिणाम 10 मार्च को घोषित हुआ। इस चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। इस बीच, कुछ उम्मीदवारों ने जीत के भारी अंतर का रिकॉर्ड बनाया है। गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद सीट पर सुनील शर्मा ने दूसरी बार जीत हासिल की है और उन्हें 3,22,045 वोट

हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया है। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने 1,50,205 मत पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा के विशाल वामा की 1,05,537 मतों के अंतर से पराजित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में 1,65,499 मत पाकर निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुभावती शुक्ला को 1,03,390 मतों से पराजित किया।

## दमदमा झील पर दो दिवसीय हरियाणा ऐरो स्पोर्ट्स उत्सव आज से

**एजेंसी**  
 सोहना। सोहना खंड में स्थित दमदमा झील को साहसिक खेल (एडवेंचर स्पोर्ट्स) क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए दो दिवसीय उत्सव का शनिवार को आगाज होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा टूरिज्म व एरो क्लब इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस उत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान लोग विभिन्न हवाई उड़ान गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। उत्सव में लोगों का प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा।



**तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप**  
 उत्सव की तैयारियों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया गया है। दमदमा झील के आस-पास के स्थल को भयं तरीके से सजाया गया है। वहीं झील के साथ लगती हरियाणा पर्यटन निगम की कैम्प साइट को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। रंग-बिरंगी लाइटों से पर्यटन साइट पूरी तरह जगमग रहेगी। पर्यटन विभाग के अधिकारियों

## पुलिसकर्मी बन इराकी नागरिक से 2.44 लाख छीने, मामला दर्ज

**गुरुग्राम ।** जिले में विदेशियों से झपटमार करने वाला गैंग एक बाद फिर से सक्रिय हो गया है। गुरुवार शाम को रेस्टोरेंट के बाहर खड़े इरानी नागरिक से पुलिसकर्मी बनकर झपटमारों ने पहले पासपोर्ट और वीजा देखा। उसके बाद 3200 डॉलर छीन कर फरार हो गए। भारतीय मुद्रा में इन कीमत 2.44 लाख रुपये है। पुलिस ने पीड़ित के दोस्त की शिकायत पर सदर थाने में गुरुवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।



मूलरूप से इराक के रहने वाले रियाद अहमद ने बताया कि वह पत्नी का इलाज करवाने के लिए गुरुग्राम में आए हैं और सेक्टर-39 इलाके में रहे है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को वह इलाके के एक रेस्टोरेंट के नजदीक खड़े थे। उसी दौरान एक कार आई। कार से दो युवक नीचे उतरकर उसके पास आए बोले कि वह पुलिसकर्मी हैं। नाम पूछने के बाद पासपोर्ट, वीजा और बैग दिखाने के लिए बोला। जब तक वह कुछ समझते तब तक दोनों 3200 डॉलर लेकर फरार हो गए। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज

इसके बाद उनका सिम बंद हो गया। दो दिन बाद राजबहादुर ने कहा कि वह फोन को चालू कर देगा। इसके लिए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगा। विश्वास करके उन्होंने उसे दिया।। बाद में उसके खाते से तीन दिनों में 38,450 रुपये, 40 हजार रुपये और 36 हजार रुपये निकल गए। मैसेज नहीं आने की वजह से उन्हें बाद में पता चला। जांच अधिकारी ने बताया कि साइबर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

**फोन लेकर खाते से निकाले को लाख**  
 राजबहादुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सिक्योरिटी गार्ड है। उसके साथ नवलेख शर्मा भी काम करता है। उन्होंने बताया कि नवलेख ने फोन देखने के लिए मांगा। आरोप है कि उसने उनके नंबर से जियो कंपनी में पोर्ट कराने का मैसेज भेज दिया। ओटीपी आने के बाद राजबहादुर ने देखकर मैसेज डिलीट कर दिया।

## संपादकीय



### ओवैसी को भाजपा का एजेंट मानते हैं यूपी के मुसलमान, इसीलिए काट दी एआईएमआईएम की पतंग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोटों को लेकर बड़े-बड़े दावे किये जा रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि मुसलमान हमारे साथ हैं, बसपा कह रही थी कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। कांग्रेस ने तो अपने पक्ष में एक मौलवी से फतवा तक जारी करवा लिया था। यही नहीं हैदराबाद से असहृदीन ओवैसी भी आकर मुस्लिम वोटों पर हक जता रहे थे लेकिन चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि ओवैसी की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। यही नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आठ प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट भाजपा के खाते में गए हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा ने मुस्लिम बहुल सीट देवबंद पर भी जीत हासिल की है जो दर्शाती है कि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया है। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने के बाद से इस समाज की महिलाओं की पहली पसंद के तौर पर भाजपा उभरी है।

चाँकने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नोटा से कम वोट पाने वाली पार्टियों में एआईएमआईएम के अलावा आम आदमी पार्टी और जदयू भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा। हैदराबाद से चलकर यूपी आये असहृदीन ओवैसी की सभाओं में भले भी डूड उमड़ी हो लेकिन उनका पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इससे पहले ओवैसी का प्रयास पश्चिम बंगाल में भी रंग नहीं ला पाया था। बिहार में उन्होंने जरूर करिश्मा दिखाया था लेकिन उनके विधायक ही पार्टी छोड़ गये। फिलहाल जनता का रुख दर्शाता है कि लोग सिर्फ उन्हें देवना-सुनना ही चाहते हैं।

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कर्नाटक के हिजाब विवाद को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की लेकिन वह प्रयास रंग नहीं लाये। यही नहीं जब ओवैसी पर यूपी में कथित हमला हुआ तो उसके जरिये उन्होंने भावनात्मक आधार पर वोट चाहे लेकिन यह प्रयास भी सफल नहीं हुआ। अब अपनी पार्टी की करारी हार पर ओवैसी कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल भले अपनी नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम की चीख पुकार कर रहे हैं मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2019 से कहता आ रहा हूँ कि ईवीएम की गलती नहीं है बल्कि लोगों के दिमाग में विष डाल दी गई है यह उसकी गलती है। ओवैसी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी मैंने अपने भाषण में कहा था कि समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती है और यही हुआ भी। उन्होंने कहा कि अब यूपी की गरीब जनता को समझ आ जाएगा। ओवैसी खुद को भाजपा का एजेंट बताये जाने के आरोपों पर कह रहे हैं कि हम पर जो इल्जाम लगता है, लगता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐलान किया है कि हम राजस्थान और गुजरात में भी लड़ेंगे।

बहरहाल, चुनाव परिणाम में भले ओवैसी की पार्टी को कोई सीट नहीं मिली हो लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भी यही लग रहा था कि लोग अभी ओवैसी का साथ देने के मूड़ में नहीं हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग ओवैसी की पार्टी को भविष्य का विकल्प मान रहे थे। मुसलमान मतदाताओं का साफ तौर पर मानना था कि इस बार लोग वोटों का बंटवारा नहीं चाहते क्योंकि उनका मकसद योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से हटाना है। वैसे भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों के राजनीतिक रुख को देखते जाये तो अक्सर यह समाज एकजुटता के साथ उस पार्टी को वोट करता है जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। इस बार शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि भाजपा का मुख्य मुकामला समाजवादी पार्टी से है इसीलिए मुस्लिम अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे और वोट को बंटने से रोका।

### बेहद खास हैं पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के सियासी मायने

कमलेश पांडेय

भारत के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के आये नतीजों के सियासी मायने स्पष्ट हैं। कुछेक अर्थों में ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी यानी आप के लिए बेहद खास हैं। क्योंकि बीजेपी जहाँ चार राज्यों में अपनी सरकार बचाने में सफल रही है। वहीं दिल्ली प्रदेश में सत्तारूढ़ आप ने दिल्ली के बाद पंजाब जैसे बड़े राज्य को भी कांग्रेस से छीनकर अपने सत्ता पर कर लिया है, वो भी दो तिहाई स्पष्ट बहुमत से। उधर, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है। वहीं, मणिपुर में बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यू ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

वहीं, इन चुनावों ने यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी यानी सपा और यूपी में कभी सत्तारूढ़ रही बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत विभिन्न छोटे-मोटे दलों को भी कुछ सीख देने की कोशिश की है, यदि इन पार्टियों का नेतृत्व इसे समझने की कोशिश करें तो। दो टुक कहा जाए तो इन पार्टियों को अपनी किसी पिछी विषयसो रणनीति में आमूलचूल बदलाव लाना होगा, अन्यथा बीजेपी से बची राजनैतिक जगह को आप भर देगी और गैर भाजपा विपक्ष दिल्ली-पंजाब की तरह हाथ मलता रह जायेगा। देखते जाये तो आम चुनाव 2024 के पहले यूपी समेत पांच विधानसभा चुनाव 2022 को सेमीफाइनल करार देने वाले लोगों के लिए भी इसमें बहुत बड़ा सन्देश छिपा हुआ है। वाकई उत्तरप्रदेश और पंजाब जैसे दो बड़े राज्यों और उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे 3 छोटे राज्यों से आये चुनाव परिणामों ने एक बार फिर से यह बात स्थापित करने की कोशिश की है कि भारतीय राजनीति की परंपरागत चुनावी धारा बदल रही है और उसकी जगह एक नई आधुनिक धारा ले रही है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद, परिवारवाद, पूंजीवाद, बाहुबल, तुष्टिकरण जैसे पुराने राजनैतिक दावोंपंच से इतर सुशासन, विकासवाद, हिंदुत्व और संतुलित समीकरण को साधक मूल्यों व वस्तुओं की राजनीति को बढ़ावा देने तथा सबको समान अवसर, सकारात्मक सहूलियत व जनसुविधाएँ देने की कोशिशों पर आधारित है। आप इसे हिंदुत्व की परिधि में सर्व समावेशी राजनीति को तरजीह भी समझ सकते हैं।

यही वजह है कि कुछेक अपवादों को छोड़कर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है और सात-आठ साल पहले गठित आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे सवा सौ साल पुरानी पार्टी की जगह धीरे धीरे ले रही है। क्योंकि समाजवादी सियासत करने वाले क्षेत्रीय दल भी कांग्रेसी सियासी लकड़ों की नकल करने के कारण भारतीय राजनीति में लगातार अपनी प्रासंगिकता खोते चले जा रहे हैं। वैसे तो भाजपा विरोधी दलों ने कोरोना महामारी के बाद भूख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतों, महंगी शिक्षा, बढ़ते अस्पताल बिल, पानी, भ्रष्टाचार, किसानों-मजदूरों, पुरानी पेंशन प्रणाली और मुफ्तखोरी की बौछार करके मुद्दों को रागमन में कोई जोर कसर नहीं छोड़ी। परन्तु ताजा चुनाव परिणाम ने जातिवाद को मजबूत कर दिया कि 5 राज्यों में जातिवाद, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी तथा छत्र सेवकुरलवादी दलों को मतदाताओं ने खारिज कर दिया है और हिंदूवादी ताकतों के हाथों में सत्ता सौंप दी है, अक्साद स्वरूप भाजपा को छोड़कर, जहाँ आगे की राजनीति कई मामलों में बीजेपी की नकल हो करार दी जाती है। वहीं, पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, उग्र में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य तथा उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत की पराजय बहुत कुछ चुगली कर रही है कि आखिर इन तपे तपाये नेताओं की शिकस्त के मायने क्या हैं? शायद यह कि हिंदुस्तान को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जैसे स्पष्ट और पारदर्शी सनातनी नेता की जरूरत है, जो केंद्रीय स्तर पर प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नक्शेकदम पर चलकर देश को एक नई राजनैतिक दिशा देने की तलाश में हैं।

## ऑपरेशन गंगा के उजालों पर विपक्ष को कालिख नहीं पोतनी चाहिए



ललित कर्ग

**मोदी ने जनता को यूकेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का केवल आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि जो कहा उसे पूरा भी कर दिखाया। उन्होंने देश की सुरक्षा एवं भारतीयों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी भाजपा सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उसके लिये सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का हित एवं उसकी रक्षा है। उसने रूस एवं यूकेन बीच चल रहे घमासान युद्ध एवं आपदा में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी राहत की खबर है कि यूकेन के घमासान वाले शहर सूमी में फंसे करीब सात सौ भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में उसे सफलता मिली है, इसके पूर्व 17 हजार भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। आपरेशन गंगा के तहत चले इस अभियान में उसे यह अभूतपूर्व सफलता मिली है और वह भी तब, जब कई देशों ने अपने लोगों को वहां से निकालने के मामले में हाथ खड़े कर

दिए थे। यह भारत की विदेश नीति, मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि एवं भारत की लगातार बढ़ती साख एवं शक्ति का परिणाम है। इसलिये आपरेशन गंगा के उजालों पर कालिख पोतने की बजाय उसकी प्रशंसा होनी चाहिए।

यह मोदी के दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि एक बड़ी चुनौती के बीच भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। इसीलिये भी यह सफलता उल्लेखनीय है क्योंकि कभी रूस तो कभी यूकेन युद्धविराम के लिए बनी सहमति का उल्लंघन कर रहे थे। इससे सूची में फंसे भारतीय छात्रों की मुसीबत बढ़ रही थी, उनका जीवन पल-पल खतरों से घिरा था। उन्हें संकट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न केवल यूकेन और रूस के राष्ट्रपति से बात करनी पड़ी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि को इन दोनों देशों के रवैये पर आपत्ति भी जतानी पड़ी। रूस पर यूकेन के हमले के बाद वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित बचाकर लाना एक जटिल काम था, इन जटिल हालातों में 17 हजार से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर लाना एक साहस का काम है। इस काम को किस तरह सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, इसे इससे समझा जा सकता है कि इसके लिए न केवल चार केंद्रीय मंत्रियों को यूकेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया, बल्कि भारतीय वायुसेना की भी सेवाएँ ली गई।

मोदी ने जनता को यूकेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का केवल आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि जो कहा उसे पूरा भी कर दिखाया। उन्होंने देश की सुरक्षा एवं भारतीयों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे एक साहसी



एवं कर्मयोगी की भांति अपनी तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद युद्धरत क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के काम को बड़ी सूझबूझ एवं जीवन्तता से सफल कर सके। वे सफल जननायक हैं, ऐसे राजनेताओं के लिये जॉन एडम्स कहते हैं 'सार्वजनिक नीतिमत्ता, व्यक्तिगत नीतिमत्ता से अलग नहीं होती। सार्वजनिक नीतिमत्ता गणराज्य की आधारशिला है। शासनकर्ताओं में सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सम्मान, सार्वजनिक हित संबंधों के विषय में सकारात्मक रुख होना चाहिए। इन बातों के साथ ही सम्मान, शक्ति, तेजस्विता भी लोगों के मन में पैदा की जानी चाहिए।' मोदी ने एक अरब तीस करोड़ की विशाल आबादी वाले देश के जन-जन में यह आस्था एवं विश्वास पैदा किया है।

मोदी ने देश की जनता को सुरक्षित, भयमुक्त एवं सम्मानजनक जीवन का कोरा नाली ही नहीं दिया, बल्कि ऐसा करके दिखाया है। रूस एवं यूकेन युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकाल कर ही नहीं बल्कि कोरोना महामारी एवं पूर्व के आतंकवादी हमलों में भी जनता को शांति एवं भयमुक्त जीवन प्रदत्त किया। जैसा कि सर्वविदित है कि

पूर्व सरकारों के दौर में देशवासी सबसे अधिक भयभीत आए दिन होने वाले आतंकवादी हमलों और सीरियल बम विस्फोटों से थे। नागरिकों में यह भय समा गया था कि न जाने कब, कहाँ, कैसे आतंकवादी हमला हो जाए। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद नागरिकों ने सुरक्षा के मामले में राहत की सांस ली है। मोदी के शासनकाल में नागरिक निर्भय एवं निःसंकोच होकर कहीं भी देश के किसी भी कोने में आ-जा रहे हैं। एक ओर राष्ट्र की सुरक्षा एवं जनता की रक्षा के लिए अनेकानेक उपाय-योजनाएँ और नीतियाँ लागू की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत तेजी के साथ विकास व प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है।

भारत ने मोदी के शासन में संकट एवं आपदा के समय जनता की रक्षा के अनूठे कीर्तमान स्थापित किये हैं। कुछ वर्ष पहले ऐसा ही काम यमन में ऑपरेशन रात के तहत किया था। तब तो उसने बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के अलावा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा समेत दो दर्जन देशों के नागरिकों को भी वहां से निकाला था। ऐसे अभियान न केवल भारत की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करते हैं, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देते हैं कि वह

एक बड़ी और जिम्मेदार शक्ति बन रहा है। रूस के यूकेन पर हमले के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा अभियान देश के साथ ही समूची दुनिया और विशेषतः पड़ोसी देशों से भी तारीफ हासिल कर रहा है। ऑपरेशन गंगा से भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वह संकट की घड़ी में खुद के साथ ही मानवीय आधार पर दूसरे देशों को मदद करने से भी कभी पूरेज नहीं करता है। भारत ने यूकेन में फंसे भारतीयों के साथ ही बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनीशिया के नागरिकों को भी वहां से निकाला। भारत ने बांग्लादेश के 9 और पड़ोसी देश नेपाल के 3 छात्रों को यूकेन से रेस्क्यू किया था। चूँकि जिन भी भारतीयों ने यूकेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया था, उन सभी को निकाल लिया गया है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि अब वहां हमारा कोई नागरिक नहीं फंसा होगा। यदि किसी कारण कोई भारतीय वहां रह भी गया होगा तो आशा की जाती है कि उसे भी निकाल लिया जाएगा।

विपक्षी सांसदों ने यूकेन में फंसे भारतीयों को निकालने के सरकार के प्रयासों पर एकजुटता भी दिखाई। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सस बैटुक में गए विपक्षी सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ आए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने के सरकार के फैसले का आम तौर पर समर्थन किया। विदेश नीति के मामले में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति किसी दल की नहीं, बल्कि देश की होती है। इसी कारण विदेश नीति के मामले में पक्ष-विपक्ष में सहमति को एक समुद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा का निर्वाह होता रहे, इसके लिए सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों को

ही सभी आग्रह-पूर्वाग्रह छोड़कर प्रयास करने चाहिए।

कतिपय विपक्षी नेता इतना सब होने के बावजूद तकहीन आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो निन्दनीय है। यह जगजाहिर है कि विपक्षी दलों का काम आलोचना करना है, उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन समय एवं स्थितियों की नजाकत को देखते हुए हर समय आलोचना एवं छिद्रान्वेषण उचित नहीं कहा जा सकता। मानवीय सोच एवं मानवता भी कुछ कहती है कि ऐसे मौकों पर अगर जरूर तो न उगलें। ऐसी नकारात्मक राजनीति करने वालों को याद रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि विदेश नीति से जुड़े मामलों में एकजुटता का अभाव न केवल राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से भारत के प्रति बैर-ट्रेष रखने वाले देशों को गलत संदेश भी देता है। ऐसी नकारात्मक सोच देश के अस्तित्व एवं अस्मिता को दुनिया में धुंधलाती है, इससे विपक्षी नामों को बचना चाहिए। थॉमस पेन नामक एक बड़े विचारक हुए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है 'द राइट्स ऑफ मैन'। इस पुस्तक में वे कहते हैं कि व्यक्ति को जन्मतः अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों पर अतिक्रमण करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। फिर वह राजा हो या सांसद।' निश्चित ही विपक्षी दलों को जिम्मेदार प्रतिनिधित्व का दायित्व निभाना चाहिए और ऐसे उद्देश्यहीन, विषयवाचक, उच्छृंखल एवं गैर-जिम्मेदाराना आलोचना से बचना चाहिए।

### लता की याद में

एक सदी का आ कर जाना । मुश्किल है उसको भर पाना ।।	तेरे नगमों भीतर खोया । अमन करेंगे यही दुआएँ, तुम भारत में फिर आना । मुश्किल है उसको भर पाना ।। 3 ।।
सुर कोकिला, कोकिल कंठी, भारत की पहचान बनाई । सुर साधिका शारद पुत्री, तुमने जीवन रीत निभाई ।।	कई भाषाओं में कई नगमों गाकर सुर के साथ रही । अपनेपन का भाव हमेशा, अनमोल तुम्हारी बात रही ।
उसके गाने और तराने सुनकर सागर को तर जाना । मुश्किल है उसको भर पाना ।। 1 ।।	एक तुम्हारे ही वश में था, हर दिल में एक घर कर जाना । मुश्किल है उसको भर पाना ।। 2 ।।
एक लता की याद में उस दिन, हर कोई आरूँ पर भर रोया, रहा जागता , रहा सोचता ,	मुकेश बोहरा अमन गीतकार बाइसेरा राजस्थान 8104123345



मुकेश बोहरा अमन गीतकार बाइसेरा राजस्थान 8104123345

## खंडित हो रहे परिवार, हमारी संस्कृति में गिरावट के प्रतीक

पिप्लिक 'सौरभ'

परिवार, भारतीय समाज में, अपने आप में एक संस्था है और प्राचीन काल से ही भारत की सामूहिक संस्कृति का एक विशिष्ट प्रतीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली या एक विस्तारित परिवार भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जब तक कि शहरीकरण और पश्चिमी प्रभाव के मिश्रण ने उस संस्था को झटका देना शुरू नहीं किया। परिवार एक बुनियादी और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसकी व्यक्तिगत और साथ ही सामूहिक नैतिकता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार संस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का पोषण और संरक्षण करता है। एक संस्था के रूप में परिवार का आज पतन देखें तो अर्थव्यवस्था के बढ़ते व्यावसायिकरण और आधुनिक रुख के बुनियादी ढांचे के विकास ने 20 वीं

शताब्दी में भारत में परिवार की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। विशेष रूप से, पिछले कुछ दशकों में पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गिरावट के प्रतीक और रूप में आज परिवार खंडित हो रहा है, वैवाहिक सम्बन्ध टूटने, आपसे भाईचारे में दुश्मनी एवं हर तरह के रिश्तों में कानूनी और सामाजिक झगड़ों में वृद्धि हुई है। आज सामूहिकता पर व्यक्तिवाद हावी हो गया है। इसके कारण भैतिक उन्मुख, प्रतिस्पर्धी और अत्यधिक आकांक्षा वाली पीढ़ी तथाकथित जटिल पारिवारिक संरचनाओं से संयम खो रही है। जिस तरह व्यक्तिवाद ने अधिकारों और विकल्पों की स्वतंत्रता का दावा किया है। उसने पीढ़ियों को केवल भौतिक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जीवन में उपलब्धि की भावना देखने के लिए मजबूर कर दिया है।

ये सभी परिवर्तन बड़ते शहरीकरण के संदर्भ में हो रहे हैं, जो बच्चों को बड़ों से अलग कर रहा है और परिवार-आधारित सहायता प्रणालियों के विघटन में योगदान दे रहा है। परिवार व्यवस्था में गिरावट लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करने के मामले पैदा कर सकती है। संस्था के रूप में परिवार में गिरावट समाज में संरचनात्मक परिवर्तन लाएगी। पर्याप्त सामाजिक-आर्थिक विकास और कृषि से बदलाव के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रजनन क्षमता में गिरावट आई है। बच्चों की संख्या के बजाय जीवन की गुणवत्ता पर जोर दिया गया, परिवार में एक नई अवधारणा जोड़ी गई। बाहक उन्मुख, प्रतिस्पर्धी और अत्यधिक आकांक्षात्मक पीढ़ियाँ तथाकथित जटिल पारिवारिक संरचनाओं से संयम बरत रही हैं। व्यक्तिवाद ने अधिकारों और विकल्पों की स्वतंत्रता पर जोर दिया। इसने पीढ़ियों को केवल भौतिक समृद्धि के

नजरिए से जीवन में उपलब्धि की भावना को देखने के लिए मजबूर किया। दृष्टिकोण, व्यवहार और समझौता मूल्यों में प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित परिवर्तन विवाह टूटने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। असामाजिक व्यवहार तेजी से परिवारों को नष्ट कर रहा है। उच्च आय और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति कम जिम्मेदारी ने विस्तारित परिवारों को अलग होने के लिए आकर्षित किया है। आज के अधिकशास सामाजिक कार्य, जैसे बच्चे की परवरिश, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, बुजुर्गों की देखभाल, आदि, बाहरी एजेंसियों, जैसे कि क्रैच, मॉडिटा, नर्सरी स्कूल, अस्पताल, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अपने हाथ में ले लिए गए हैं। धर्मशाला संस्थान, अंतिम संस्कार केंद्रकार, आदि ये सभी पहलुएँ विशेष रूप से परिवार द्वारा किए जाते थे।

## भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वर्णिम कमाल!!!



**विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक भारतीय लोकतंत्र तथा नए भारत को स्वर्णिम प्रगाढ़ी आकार देने, राज्य विधानसभाओं और संसद को प्रगाढ़ी साधन बनना होगा**

**लोकतंत्र में अटूट स्वर्णिम विश्वसनीयता कायम करने मतदान के साधनों पर अचूक विश्वसनीयता पैदा करनी होगी जिससे सवाल उठाने की गुंजाइश ही ना हो- एड किशन भावनाजी**

गोंदिया - विश्व स्तर पर सबसे बड़ा और पुराने लोकतंत्रों में से एक भारतीय लोकतंत्र है जो विश्व के अनेक देशों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। जिसका संचालन संवैधानिक संस्था भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बहुत कुशलता और जिम्मेदारी के साथ करता है जो विश्वसनीय, विश्व विख्यात है

2 दिन पूर्व ईवीएम मशीनों के संबंध में विवाद और उसपर संदिग्धता पूर्वक उठे प्रश्नचिह्न भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हालांकि इसके पूर्व भी कई बार ऐसे बयान आए हैं के ईवीएम का बदन कोई भी दबाओ वोट किसी एक खास पार्टी को ही जाता है!! इसके वैश्विक स्तरपर भारतीय लोकतंत्र के प्रति अच्छा संकेत नहीं जाता, इसलिए अब नए भारत को स्वर्णिम प्रभावी आकार देने के लिए इस तरह के आरोपों, बयानों, बातों पर विराम लगाने के लिए राज्य विधानसभाओं और संसद को प्रभावी साधन बनना होगा!! याने ऐसी तकनीकी या कानून लाना होगा ताकि ईवीएम से मतदान सहित मतदान के सभी साधनों पर विपक्ष, पक्ष व जनता का अटूट विश्वास हो तथा उसपर सवाल उठाने की गुंजाइश ही ना हो!!

है!!! उसकी ताकत हमने 10 मार्च 2022 को पांच राज्यों से आए चुनावी नतीजों में देखे कि कैसे उत्तराखंड के सारे भावी प्रस्तावित मुख्यमंत्रियों सहित वर्तमान मुख्यमंत्रियों और बहुत पावरफुल उम्मीदवार भी चुनाव हार गए और सीटों को चुनावी के साथ एक पार्टी जीत गई!!! यूपी चुनाव में हमने देखे कि बड़े-बड़े ओहदे वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हार गए जिसपर सभी को आश्चर्य हुआ लेकिन यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती कमाल है!! पंजाब में हमने देखे के भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वर्णिम खूबसूरती ने कुछ बात ही निराली कर दी!! वर्तमान मुख्यमंत्री सहित बड़े-बड़े ताकतवर नामों और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार धराराई हुए जिस पर सबको आश्चर्य है! परंतु यह भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वर्णिम खूबसूरती का कमाल है!!! कुल मिलाकर हमने देखे कि इन चुनावों में लोकतंत्र के स्वर्णिम कमाल का लोहा सब को मानने पर मजबूर किया है। एक जनता ने लोकतंत्र में अपने मताधिकार का उपयोग ऐसे स्वर्णिम रूप में किया के बड़े-बड़े नेताओं को पटखनी देकर अपनी ताकत दिखाई जो काबिले तारीफ है!!!

करते हुए अपने कर्तव्य पालन के रूप में अपनी सेवा जारी रखना है परंतु यह याद रखना चाहिए कि जीत का खूब जश्न जरूर मनाइए और जनता का आदर कीजिए, क्योंकि जीत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है!! जो उम्मीदवार आपसे हारा है उसके लिए सहानुभूति रखना और उसके करीबियों को उनकी पार्टी को हार का एहसास या अपमान नहीं करना है!! यह एक अच्छे ईंसान का गुण है, यही लोकतंत्र की खुशबू और खूबसूरती है कि जीत को अहंकार नहीं बनाएँ हार को अंतिम हार नहीं बनाकर फिर जनता से जुड़े, जनसेवा कार्यों में लग जाएँ यही खूबसूरती भारतीय परंपरा और लोकतंत्र की खुशबू रही है!!! यह लोकतंत्र के मूलिक उद्देश्य और विशेषताओं की करें तो, संविधान में लोकतंत्र के संपूर्ण व्याख्या की गई है। लोकतंत्र के कुछ मौलिक उद्देश्य एवं विशेषताएँ निम्न हैं। (1) जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी, (2) उत्तरदायी सरकार, (3) जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना, (4) सीमित तथा सांविधानिक सरकार, (5) भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को विमानता, स्वतंत्रता और न्याय का वादा, (6) निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव, (7) वयस्क मताधिकार, (8) सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता का हिस्सा है। हार के बाद जीत और जीत के बाद हार होना स्वाभाविक है!! बस हर व्यक्ति को इसे नजरअंदाज

कानून का शासन, (12) विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति, (13) सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में। साथियों बात अगर हम माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा दिनांक 10 मार्च 2022 को एक कार्यक्रम में संबोधन की करें तो उन्होंने, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों की चर्चा करते हुए कहा कि अपने देश की महान लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत बनाने के लिए हमें महान संकल्प लेना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य विधानसभाएँ तथा संसद नए भारत को आकार देने के लिए प्रभावी औजार बन सकें। हम सभी यह सपना देख रहे हैं। हमारा लोकतंत्र विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें इसे और अच्छा बनाना चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएँगे कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वर्णिम कमाल!!! विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक भारतीय लोकतंत्र तथा नए भारत को स्वर्णिम प्रभावी आकार देने राज्य विधानसभा और संसद को प्रभावी साधन बनाना होगा। लोकतंत्र में अटूट विश्वसनीयता कायम करने, मतदान के साधनों पर अचूक विश्वसनीयता पैदा करनी होगी जिससे सवाल उठाने की गुंजाइश ही ना हो!!!

### टटोल रहे तमाम !



कहाँ हुई है गलती ?  
आय ये परिणाम ।।  
मात खोते वाले ।।  
टटोल रहे तमाम ।।  
भुगत खामियाजा ।।  
आया ये स्कोर ।।  
छया भी है मातम ।।  
मचा भी है शोर ।।  
तर्क सबके अपने ।।  
और अलग विचार ।।  
नाथ को पियास ।।  
ना थी ये पतवार ?  
करना होगा मनन ।।  
भूल भी सुधार ।।  
फल मिले फिर आगे ।।  
शायद यादगार ।।

### कृष्णोन्म राय

## शार्ट न्यूज

### 60 फीसदी से अधिक वोट पाकर जीते योगी और अखिलेश

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव भारी अंतर से चुनावी जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों में शामिल हैं। इस चुनाव में योगी की सीट गोरखपुर सदर और अखिलेश की करहल सीट सर्वाधिक हाई प्रोफाइल सीट थीं। इन दोनों सीटों पर योगी और अखिलेश ने कुल पड़े वोट में से 60 प्रतिशत से अधिक मत हासिल कर जीत दर्ज की है। सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से योगी एवं अखिलेश ही मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार थे। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार गोरखपुर सदर सीट पर योगी को 1,65,499 वोट मिले। यह कुल पड़े वोट का 66.18 प्रतिशत है। उनकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा की सुभाषाती शुक्ला को 62,109 मत मिले। यह कुल मतदान का 24.84 प्रतिशत था। इस प्रकार योगी ने शुक्ला को 01 लाख से अधिक मतों के अंतर से परास्त किया। इसके अलावा मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश को 1,48,196 वोट मिले। यह कुल पड़े मत का 60.12 प्रतिशत रहा। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी केन्द्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल को 68 हजार से अधिक मतों से परास्त किया। बघेल को 80,692 वोट मिले जो कुल मतदान का 32.74 प्रतिशत था।

### जीशान हैदर कांग्रेस से निष्कासित

**लखनऊ।** कांग्रेस नेता जीशान हैदर को अनुशासनहीनता के आरोप में छह साल के लिये पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी में इलेक्ट्रनिक मीडिया एवं उर्दू प्रेस विभाग के संयोजक जीशान हैदर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के लिये पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किये थे। उन्होंने कांग्रेस महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्ढा के निजी सचिव संदीप सिंह को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। पार्टी की अनुशासन समिति ने शुक्रवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि बयान मीडिया और समाचार पत्रों के जरिये हैदर ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है जो अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। इसलिये उन्हें पार्टी के सभी पदों से पृथक करते हुये छह वर्ष के लिये निष्कासित किया जाता है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्ढा के नेतृत्व में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र दो सीटें मिली है जबकि 2017 में पार्टी को सात सीटों पर जीत हासिल हुयी थी। करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में खासी बेचैनी देखी जा रही है।

### विधान सभा चुनाव के बाद सुरक्षा का अहसास करने के लिए फलैंग मार्च किया



**मेरठ।** सरधना में विधानसभा चुनाव व मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न होने व प्रत्याशियों की हार जीत के फैसले के बाद सरधना में पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का अहसास कराने के लिए फलैंग मार्च किया। पुलिस-पैरामिलिट्री ने सरधना कोतवाली के फलैंग मार्च शुरू किया जो नगर के मुख्य मार्गों बाजारों व मोहल्लों से होते हुए गुजरा। पुलिस ने लोगों को भयमुक्त रहने का सन्देश दिया। सरधना बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी रतिभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस, पैरामिलिट्री व पीएस की जवानों ने काफिले के साथ सरधना नगर में फ्लैंगमार्च किया। जो नगर के गंज बाजार लक्ष्मर गंज कालेद चुंगी कवाड़ी बाजार रामलीला रोड देवी मंदिर तहसील रोड आदि से होकर गुजरा। इस दौरान पुलिस लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिलाते हुए भयमुक्त होकर शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील की। पुलिस ने गड़बड़ी करने वालों के बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सभी सूचनाएं गुप्त रखी जायेंगी। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा। मालूम खराब करने वालों की खैर नहीं होगा असमर्थत्व तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा नगर में भरी पुलिस फोर्स को देख कुछ देर के लिए लोगों में खौफ भी देखा गया लोग भारी तादाद में पुलिस को देख एक दुसरे से चर्चा करते दिखाई दिए,सही जानकारी मिलने पर लोगों ने राहत महसूस की।

### मतगणना के दौरान हुई हिंसा में 400 पर मुकदमे

**बागपत।** विधान सभा मतगणना के दौरान हिंसा करने वाले रालोद जिलाध्यक्ष सहित 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों पर मतगणना के दौरान पथराव, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला सहित कई आरोप लगे है इस पथराव में सीओ समेत कई इस्पेक्टर घायल हो गए थे एसपी बागपत के अनुसार दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास लखमी चंद पटवारी कॉलेज में मतगणना का कार्य चल रहा था। वहा से बर्दई सी मीटर दूर रालोद जिलाध्यक्ष जगपाल तेलवतिया अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। कार्यकर्ताओं द्वारा हाईवे पर पथराव किया गया। साथ ही मतगणना स्थल की ओर भीड़ ने जाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा भीड़ को रोकने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े व लाठीचार्ज करना पड़ा। पथराव में सीओ समेत कई इस्पेक्टर व पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने वीडियो फुटेज के आधार पर रालोद जिलाध्यक्ष डॉक्टर जगपाल तेलवतिया सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए चार सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

### जनता ने निगम के विकास कार्यों पर भी मुह्र लगायी: मेयर

**सहारनपुर।** मेयर संजीव बालिया ने कहा है कि प्रदेश में जनता ने भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर जहां योगी सरकार के नियम, विकासोन्मुखी और सुशासन पर मुहर लगायी है वहीं सहारनपुर में भाजपा को जिता कर जनता ने निगम के विकास कार्यों पर भी मुहर लगायी है। उन्होंने कहा कि शहर के नवनिर्वाचित विधायक राजीव गुंवर के साथ बैठकर सहारनपुर को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनायी जायेगी और मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जायेगा। मेयर संजीव बालिया नगर निगम में उत्तर प्रदेश और सहारनपुर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर खुशियां साझा करते हुए पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदेश सरकार के पांच साल के कार्यकाल पर जनानदेश दिया है। मेयर ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी राजीव गुंवर को एक लाख 43 हजार से अधिक वोट मिलना जहां प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का समर्थन हैं वहीं राजीव गुंवर की जनता के बीच अपनी सक्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और निगम के विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि निगम ने गत चार वर्ष में बिजली और नालों-सड़कों के निर्माण के रूप में जितने कार्य कराये है उनसे पिछले पचास साल में भी नहीं किये गए हैं। मेयर ने कहा कि महानगर में जो विकास कार्य अभी रहे हैं उन्हें शीघ्र पूरा कराया जायेगा। शहर को कूड़ा मुक्त शहर बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जायेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के लिए मानकमंजूर में रोडवेज को स्थान दे दिया गया है। शहर के बस अड्डे को भी शिफ्ट करने की योजना है उसके लिए रोडवेज के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। नगरपाल ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सभी स्मार्ट सिटी में यह प्रावधान है कि बस अड्डे शहर से बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को रहत मिले और योजनाएं भी प्रभावित न हो यह प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व मेयर संजीव बालिया ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर निगम के सभी पार्षदों के साथ खुशियां साझा करते हुए बधाई दी और चुनाव में दिए गए सहयोग के लिए आभार जताया।

# गन्ना पट्टी में 71 में से 31 सीटें सपा गठबंधन ने झटकीं

एजेंसी

**सहारनपुर।** पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना पट्टी माने जाने वाले क्षेत्र में करीब 71 सीटें ऐसी हैं जिन पर जाटों का सीधा असर पड़ता है। जो नतीजे सामने आए हैं उनमें 71 में से 31 सीटों पर गठबंधन चुनाव जीत गया जबकि पिछले चुनाव में यहां भाजपा को एकतरफा जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने जाटों को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष शमली जिले के मोहित बेनीवाल को बनाया हुआ है। मुजफ्फरनगर के सांसद डा. संजीव बालियान केंद्र में राज्य मंत्री के पद पर हैं तो प्रदेश सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह मंत्री हैं। भाजपा ने जिला पंचायत चुनाव में पश्चिम की इस गन्ना पट्टी में नौ जाटों को इस उम्मीद में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था कि उनके चलते किसान आंदोलन और भारतीय किसान यूनियन के कारण भाजपा जाट क्षेत्रों में नुकसान नहीं होगा। यह अलग बात है कि स्थिति की

नाजुकता को भांपते हुए खुद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और स्वयं प्रधानमंत्री को जनता के बीच उतरना पड़ा। उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को अनुमान से कम नुकसान हुआ। बागपत के सांसद डा. सत्यपाल सिंह का अपनी जाट बिरादरी पर जरूरत असर कायम रहा। उनके संसदीय क्षेत्र बागपत में पांच में से तीन सीटें मोदी नगर की मौजूदा विधायक डा. मंजू सिवाच, बागपत से सांसद डा. मंजू सिवाच, बागपत से मौजूदा विधायक योगेंद्र धामा और बड़ौत से केपी मलिक फिर से चुनाव जीत गए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान डा. सत्यपाल सिंह ने इन्हीं तीनों क्षेत्रों में बहुत हासिल की थी और जिन दो सीटों छपराैली और सिवाल खास में वह पीछे रहे थे वहीं पर इस बार भी भाजपा उम्मीदवारों को हार हुई है। सिवाल खास में भाजपा के जाट उम्मीदवार मनिन्द्र पाल सिंह को सपा रालोद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद के हाथों पराजय झेलनी पड़ी। जबकि छपराैली



सीट पर भाजपा के सहेन्द्र सिंह रमाला को रालोद के अजय कुमार के हाथों पटखनी मिली। जाट बहुल मुजफ्फरनगर जिले में भाजपा ने छह में से चार सीटें जीती हैं। केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान अपने संसदीय क्षेत्र की तीन सीटों पुरकाजी, चरथावल और बुढ़ाना को नहीं बचा पाए। बुढ़ाना में तो भाजपा उम्मीदवार उमेश मलिक की पराजय हुई। हार वाली इन तीनों सीटों को संजीव बालियान ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ था। बिजनौर जिले में नजीबाद सीट पर पूर्व सांसद भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर

भारतेंद्र सिंह की सपा उम्मीदवार तसलीम अहमद के सामने पराजय हुई। ध्यान रहे कुंवर भारतेंद्र सिंह 2019 का लोक सभा चुनाव भी हार गए थे। ध्यान रहे संजीव बालियान लोकसभा चुनाव-2019 में चौधरी अजीत सिंह को पराजित कर जाटों में अपनी नई पहचान बनाई थी जो इस विधानसभा चुनाव में जाटों ने ही मिट्टी में मिला दी है। भाजपा मुजफ्फरनगर और खतौली सीट जरूर जीतने में सफल हुई। मुजफ्फरनगर शहर से पुनः निर्वाचित कपिल अग्रवाल का संजीव बालियान द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा लेकिन कपिल अग्रवाल चुनाव जीतने

में सफल रहे। पश्चिमी भाजपा के अध्यक्ष शमली के मोहित बेनीवाल का नेतृत्व भी कसौटी पर था। वह अपने गृह जनपद में तीनों में से एक भी सीट भाजपा की झोली में नहीं डलवा पाए। बहुचर्चित कैराना सीट पर भाजपा उम्मीदवार मुगांका सिंह की पराजय पूरे भाजपा नेतृत्व के लिए शर्मिन्दगी भरी रही। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ने कैराना सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ था। विजयी सपा उम्मीदवार नाईद हसन को जेल में डालने का भी भाजपा को लाभ नहीं मिला। जाटों की नाराजगी के कारण थानाभवन सीट पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा को पराजय झेलनी पड़ी। रालोद उम्मीदवार अशरफ अली के पक्ष में जाटों ने जमकर मतदान किया। भाजपा का कोई भी जाट नेता सुरेश राणा को जीत की हैट्टिक लगवाने में सफल नहीं हो पाया।

शमली सीट पर तो भाजपा का उम्मीदवार मौजूदा विधायक तेजेंद्र सिंह निरवाल जाट बिरादरी से ही थे। जिनकी रालोद के जाट उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी के सामने शर्मनाक हार हुई। ध्यान रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत की अगुवाई में किसानों के जाट बिरादरी के तबके ने भाजपा को हराने के लिए एडी से चोटी का जोर लगाया। उस नुकसान को रोकने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जनवरी को नई दिल्ली में सांसद चौधरी प्रवेश वर्मा के आवास पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सौ प्रमुख जाट नेताओं की बैठक की थी। अमित शाह ने जाटों से भावत्मक अपील की थी कि लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और विधान सभा चुनाव 2017 में जाटों के समर्थन से भाजपा को शानदार जीत हासिल हुई थी। विधान सभा चुनावों में भाजपा ने पश्चिमी की 143 में से 108 सीटें जीती थी और 2019 के लोक सभा चुनावों में भाजपा ने 29 में से 21 लोक सभा सीटों पर जीत हासिल की थी।

## भाजपा के घटाव के सिलसिले को रखेंगे बरकरार : अखिलेश

**लखनऊ।** समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सीटें घटाने में सफल रहा है और घटाव का यह सिलसिला निरंतर जारी रखने के प्रयास किये जायेंगे। यादव ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम से पता चलता है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। सपा की कोशिश रहेगी कि भाजपा के घटाव का सिलसिला बरकरार रखा जाये। मौजूदा चुनाव में गठबंधन काफी हद तक भाजपा के भ्रम और छलावे को जनता

के बीच दूर करने में सफल रहा है। उन्होंने द्वाँट किया उग्र की जनता को हमारी सीटें ढाई गुनी व मत प्रतिशत डेढ़ गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाना जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा।आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। सपा अध्यक्ष ने सपा गठबंधन के जीते हुये विधायकों को बधाई देते हुये कहा कि सभी नये विधायक जनता की सेवा और सहायता करने की जिम्मेदारी शत प्रतिशत निभायें।

उन्होंने द्वाँट किया सपा-गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नये विधायक जनता की सेवा व सहायता करने की जिम्मेदारी शत-प्रतिशत निभाएं। उस हर एक छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक, शिक्षामित्र, महिला, पुरानी पेंशन के समर्थक, किसान, मजदूर और प्रोफेशनल को धन्यवाद जिसने हममें विश्वास जताया। गौरतलब है कि गुरुवार को आये चुनाव नतीजों में भाजपा को

254 सीटें मिली है जबकि सपा को 112 सीटें मिली है। वर्ष 2017 के चुनाव से यदि तुलना की जाये तो भाजपा को जहां 57 सीटों का नुकसान हुआ है वहीं सपा को 64 सीट का फायदा हुआ है।



## सहारनपुर : पुलिस मुठभेड़ में तीन शांति गिरफ्तार

**सहारनपुर।** थाना बिहारीगढ़ प्रभारी मनोज चौधरी ने टीम के साथ एवं क्राईम ब्रांच टीम का कल देर रात बदमाशों से आमना-सामना हुआ। दो घंटे बदमाशों के साथ चली मुठभेड़ में पुलिस टीम ने जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए तीन तमचाधारियों को 20 डिब्बे जीवित मधुमक्खी, अवैध असहले,एक केंटर तथा एक बाईक सहित तीनों बदमाशों की चारों ओर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। थाना बिहारीगढ़ प्रभारी मनोज चौधरी अपनी पुलिस वरिष्ठ उप-निरीक्षक शिव कुमार, उप-निरीक्षक रामचन्द्र, हेड-कांटेबल राशेद अली, लक्ष्मी प्रशाद, कांस्टेबल पंकज, मंजीत, तथा क्राईम ब्रांच प्रभारी

जयवीर सिंह, अजब सिंह के साथ कल देर रात लगभग 11,15 बजे यहां तक्रीपुर रोड स्थित चानचक मोड़ पर चैकिंग पर थे, कि अचानक सामने से आ रहे लिलेंड केंटर जिसका नम्बर यूपी-11 बीटी 2350 के चालक ने पुलिस टीम को देखते ही केंटर को और तेज दौड़ा दिया तथा केंटर के साथ बाईक पर चल रहे उसके दो साथियों ने भी दौड़ा दी तथा चैकिंग कर रही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन जाबांज पुलिस एवं क्राईम ब्रांच टीम ने भी हिम्मत नहीं हारी तथा बदमाशों को ईट का जवाब पत्थर से देते हुए अपनी जान पर खेलकर केंटर एवं बाईक सवारों की चारों ओर से घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा।

# यूपी के 17 जिलों में भाजपा ने किया विपक्ष का सूपड़ा साफ

एजेंसी

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 जिलों में सभी विधानसभा सीटें जीत कर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के साथ दोबारा जीत भी दर्ज की है। भाजपा ने वाराणसी, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी-हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, देवरिया में सारी की सारी सीटें जीती हैं। पार्टी सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच साल के कार्यकाल के दौरान महानगर कुशल नेतृत्व और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर पूरे यूपी में बहुत बड़ी लाइन खींची दी, जिसे विरोधी पर नहीं कर पाए। योगी यूपी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने पांच साल का कार्यकाल भी पूरा किया और दोबारा जीत भी दर्ज की। चुनाव में भाजपा को इस बार सभी वर्ग का वोट मिला। योगी ने उत्तर प्रदेश को जाति के वोट बैंक को राष्ट्रवादी वोट बैंक में बदल दिया। यूपी में योगी की जीत की कई वजह रही, जिसमें प्रमुख रूप से मोदी का मार्गदर्शन, योगी का शासन, यूपी में गरीबों को राशन, महिलाओं को सुरक्षा का आश्वासन और हिन्दुत्व फैक्टर है। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में



जाट वोटर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बंट गये। दलित वोट पहली बार बीएसपी से बीजेपी में शिफ्ट होता दिखा। इस साथ के साथ बीजेपी ने गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्धनगर, आगरा, कासगंज और एटा में क्लीन स्वीप किया, जबकि अलीगढ़, मथुरा, सहारनपुर, बुलंदशहर में बीजेपी की परफोमेंस काफी बढ़िया रही। यूपी के हर फेज में चुनाव में बीजेपी विरोधियों को नुकसान हुआ। इस बार के चुनाव में योगी के खिलाफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, मायावती और प्रियंका गांधी मैदान में थीं। पश्चिम यूपी में जहां दावा जा रहा था कि एसपी और आरएलडी का गठबंधन आए रहेगा लेकिन यहां बीजेपी लीड ले गई। जाट लीड में राष्ट्रीय लोक दल के बड़ी मार्जिन से जीतने का दावा किया गया, पर जाटों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। बुंदेलखंड ने भी बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचा दिया। बुलंदशहर में सात सीटों पर कमल खिला। आगरा की नौ सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर इतिहास रचने का काम किया। सोनभद्र की तीन और वाराणसी की सात सीटें भाजपा के नाम रही।

# मुस्लिम दलित समाज मिल जाता तो यूपी में परिणाम कुछ और होते : मायावती

**लखनऊ।** बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुये कहा कि मुस्लिम समाज का वोट भाजपा के साथ मिल जाता तो पश्चिम बंगाल जैसे चुनाव परिणाम यहां दोहराये जा सकते थे। विधानसभा चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सुश्री मायावती ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव के दौरान सुनियोजित तरीके से जनता के बीच बसपा को वोट भाजपा की बी टीम कहने का दुष्प्रचार किया गया और कहा गया कि बसपा कम मजबूती



से चुनाव लड़ रही है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है क्योंकि भाजपा से बसपा को लड़ाई राजनीतिक के साथ-साथ सैद्धान्तिक व चुनावी भी थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के अति-आक्रामक मुस्लिम-विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एकतरफा

तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा-विरोधी हिन्दू लोग भी बसपा में नहीं आए। यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है तथा अब समय बीत जाने के बाद ये लोग दोबारा से जरूर पछताएंगे। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे यह स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमपी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था,

तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुये कहा कि उम्मीद के विपरीत जन नतीजे आये हैं तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेन्ट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी बसपा आना है, तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय भी दिया है कि अब प्रदेश वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है।

## नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू योगी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा

**लखनऊ।** उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद शुक्रवार को नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इसकी औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मौजूद सरकार के मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक के साथ हुयी। बैठक के बाद योगी ने शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदी बेन से मुलाकात कर सरकार का कार्यकाल पूरा होने की जानकारी देते हुये उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके पहले मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपार जन समर्थन एवं आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जनता जनार्दन का अभिनन्दन करते हुए आभार प्रकट किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के



अनुसार बैठक में चुनाव के दौरान नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी किया गया। गौरतलब है कि योगी की अगुवाई में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 255 सीटों पर विजय प्राप्त कर एक बार फिर सत्ता में वापसी को सुनिश्चित कर लिया है। गुरुवार को हुयी मतगणना में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को 111 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। मंत्रिमंडल ने विधानसभा चुनाव

सकृशल सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग एवं इससे जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षाकर्मियों के प्रति भी आभार व्यक्त किया गया। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि प्रदेश की जनता ने न केवल भाजपा की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए उसे प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है, अपितु अन्य दलों को यह संदेश भी दिया है कि अब प्रदेश में विकास एवं सुशासन के अलावा खोखले नारों, जातिवाद एवं परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार सुरक्षा, सुशासन, विकास और गरीबों के सलाहोकरण के संकल्प के साथ प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 19 मार्च, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया था।

## लिंग परीक्षण पर सख्त रोक लगाने से सुधरा जिले का लिंगानुपात : सीएमओ

**ललितपुर।** मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को गर्भधारण पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के अंतर्गत जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित हुई 7 इस दौरान बताया गया कि जनपद का लिंगानुपात बेहतर हुआ है। बेटियों के जन्मदर में वृद्धि हो रही है। जनपदवासियों को नोडल अधिकारी डॉ अजय भाले, जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉ मीनाक्षी सिंह एवं पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम की कंयूटर ऑपरेटर पूनम ने दीप प्रज्वलन रोक का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसके

सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे है। जनपद के लिंगानुपात में सुधार आया है। अब बेटियों के जन्म दिन पर खुशियां मनाई जाती हैं। पहले लोगों में यह धारणा थी कि केवल बेटा ही उनका सहरा बन सकता है लेकिन बेटियां भी माता पिता के सुख दुख में साथ खड़ी दिख रही हैं। कार्यशाला की शुरुआत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जौपी शुक्ला, एससीएमओ एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ अजय भाले, जिला महिला चिकित्सालय की सीएमएस डॉ मीनाक्षी सिंह एवं पीसीपीएनडीटी कार्यक्रम की कंयूटर ऑपरेटर पूनम ने दीप प्रज्वलन किया।

## शार्ट न्यूज

### वार्षिक निर्यात 414 अरब डालर रहने का एविजम बैंक का अनुमान

**नयी दिल्ली।** एविजम बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात 111.3 अरब डॉलर रहेगा। जिसमें गैर-तेल निर्यात का योगदान 95.2 अरब डॉलर रहेगा। इस तरह चालू वित्त वर्ष में कुल वाणिज्यिक निर्यात 414 अरब डालर के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एविजम बैंक) की एक रपट के अनुसार कुल निर्यात 23 प्रतिशत की दर से और गैर तेल निर्यात 15.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कुल निर्यात और गैर-तेल निर्यात क्रमशः 90.4 अरब डालर और 82.2 अरब डालर के बराबर था। भारतीय एविजम बैंक के भारत के निर्यात में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से निरंतर वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में मजबूत सुधार और उसके परिणाम स्वरूप वैश्विक आयात की मांग में वृद्धि के चलते है। साथ ही जिसों की कीमतों के अनुकूल होने का भी इस पर अवसर पड़ा है। एविजम बैंक के अनुसार 2021-22 में वाणिज्यिक माल का कुल निर्यात 414.8 अरब डालर डॉलर होने की उम्मीद है, जो एक साल पहले की तुलना में 42 प्रतिशत ऊंचा होगा। इसमें गैर-तेल निर्यात 33 प्रतिशत की दर से बढ़ कर 353.4 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। एविजम बैंक की रपट में कहा गया है कि भू-राजनैतिक तनावों के चलते जिसों के भाव में भारी उथल पुथल की स्थिति में ये अनुमान प्रभावित हो सकते हैं।

### खाद्य तेलों में उबाल जारी, उड़द और मूंग में भी तेजी

**नयी दिल्ली।** रूस - यूक्रेन संकट का तत्काल समाधान होता नहीं दिखने के कारण वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों में तेजी के बीच आज दिल्ली थोक जिस बाजार में मूंगफली तेल, वनस्पति, सूरजमुखी और पॉम ऑयल के साथ ही उड़द दाल और मूंग दाल में तेजी रही। इस दौरान शेष दालों और गुड़, चीनी तथा चावल में टिकाव रहा। तेल-तिलहन : वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मार्च बायदा 587 रिंगिट उबलकर 7093 रिंगिट प्रति टन पर पहुंच गया। इसी तरह मार्च का अमेरिकी सोया तेल बायदा चार सेंट की तेजी के साथ 74.72 सेंट प्रति पौंड बोला गया स्थानीय स्तर वनस्पति और मूंगफली तेल में 366 रुपये प्रति क्विंटल, पॉम ऑयल 365 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी तेल में 357 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी रही। सोया रिफाईंड और सरसों तेल में टिकाव रहा। गुड़-चीनी : मीठे के बाजार मिश्रित रूख रहा। चीनी स्थिर रहा जबकि गुड़ की कीमतों 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। दाल-दलहन : दाल-दलहन के बाजार में उड़द दाल में 150 रुपये और मूंग दाल में भी 150 रुपये की तेजी रही। इस दौरान चना दाल, अरहर दाल, मसूर दाल में टिकाव रहा। चना भी स्थिर रहा। अनाज : अनाज मंडी में भी स्थिरता रही। इस दौरान गेहूँ और चावल के भाव पिछले कारोबारी दिवस के स्तर पर टिके रहे।

### सीतारमण ने की कनाडा की मंत्री के साथ चर्चा

नयी दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां कनाडा की ट्रेड, निर्यात, छोटे कारोबार एवं आर्थिक विकास मंत्री मेरी एनजी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय निवेश एवं व्यापार को बढ़ावा देने में सहयोग करने पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान सीतारमण ने कनाडा में कुछ बड़े पेंशन फंडों को लेकर सराहना की और कहा कि कनाडा के पेंशन फंड हाउस के भारत में निवेश का स्वागत है। वे राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी निवेश कर सकते हैं।

### पेट्रीएम पेट्रोटेस बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई

**नयी दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निजी क्षेत्र की कंपनी पेट्रीएम पेट्रोटेस बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत यह कदम उठाया है। आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेट्रीएम पेट्रोटेस बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने बैंक को अपने आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। पेट्रीएम पेट्रोटेस बैंक लिमिटेड द्वारा नए ग्राहकों को शामिल करना आरबीआई की विशिष्ट अनुमति के अधीन होगा, जोकि आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रदान की जाएगी।

### सीतारमण ने की कनाडा की मंत्री के साथ चर्चा



**नयी दिल्ली।** केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां कनाडा की ट्रेड, निर्यात, छोटे कारोबार एवं आर्थिक विकास मंत्री मेरी एनजी के साथ चर्चा की। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय निवेश एवं व्यापार को बढ़ावा देने में सहयोग करने पर भी विचार विमर्श किया। इस दौरान श्रीमती सीतारमण ने कनाडा में कुछ बड़े पेंशन फंडों को लेकर सराहना की और कहा कि कनाडा के पेंशन फंड हाउस के भारत में निवेश का स्वागत है। वे राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन और राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में भी निवेश कर सकते हैं।

### 'डेल भारत में लगातार तीसरे वर्ष का सबसे महोसेमंद ब्रांड : टीआर रिपोर्ट

**नयी दिल्ली।** टीआर ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट (टीआर) 2022 में भी डेल को भारत का सबसे महोसेमंद ब्रांड घोषित किया गया है। डेल तीन वर्ष से इस स्थान पर कायम है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में डेल के बाद एमआई मोबाइल्स दूसरे स्थान पर और सैमसंग मोबाइल्स ने तीसरे स्थान हासिल किया है। कुल एक हजार ब्रांड की इस इस सूची में पिछले वर्ष भी तीनों ब्रांडों का यही स्थान था। इस वर्ष टाटा समूह के 36 ब्रांडों ने सूची में अपनी जगह बनायी है। टीआरए की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलजी टेलीविजन पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर उठकर चौथे नंबर पर पहुंच गया है तथा यह टेलीविजन के सबसे महोसेमंद ब्रांड की सूची में शीर्ष पर है। अमेजन पिछले वर्ष की तुलना में 11 स्थान चढ़कर इस बार पांचवें स्थान पर आ गया है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के प्रस्ताव की चर्चाओं के बीच इस सूची में छोटे स्थान पर है। प्रीमियम कार निर्माता बीएमडब्ल्यू इस साल सातवें स्थान पर है, जो पिछली रिपोर्ट के मुकाबले बारह स्थान ऊपर है। फर्निचर के अग्रणी ब्रांड टाइटन को समग्र सूची में 8वें स्थान पर रखा गया है। यह ब्रांड पिछले वर्ष की तुलना में 33 स्थान ऊपर आया है। लेनोवो लैपटॉप में 63 स्थानों को पीछे छोड़ते हुए नौवां स्थान हासिल किया है। सैमसंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स-डायवर्सिफाइड कैटेगरी में 10वें स्थान पर है। टीआरए रिसर्च के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन. चंद्रमौली ने कहा, इस साल की रिपोर्ट इस मायने में अलग है कि कुछ गुप ब्रांडों ने दूसरों की तुलना में काफी बेहतर स्थान प्राप्त किया है। पहली बार टाटा समूह के 36 ब्रांडों ने इस सूची में प्रवेश किया है, इसके बाद गोदरेज 9 ब्रांडों के साथ दूसरे नंबर है। रिपोर्ट में अमूल, एलजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सैमसंग के 8-8 ब्रांड हैं और रिलायंस के 7 ब्रांड हैं।

# भारत में भी अमेजन के खिलाफ अमेरिका की तरह कार्रवाई हो : कैट

**एजेसी**  
**नयी दिल्ली।** खुदरा कारोबारियों के प्रमुख संगठन कैट ने अमेरिकी कांग्रेस की ज्यूडिशियरी कमिटी द्वारा अटॉर्नी जनरल से अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) को अमेजन के आपराधिक कृत्य एवं उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपराधिक आचरण किये जाने की जांच करने के लिए कहे जाने का



जांच को प्रभावित एवं बाधित करने के लिए भ्रामक आचरण के पैटर्न और अभ्यास की रचना का षड्यंत्र रहा। कैट ने कहा है कि अमेज़न के गूह देश अमेरिका में इस तरह का वाक्या अमेजन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। अमेरिकी सांसदों का 24-पृष्ठ का पत्र इस बात की विस्तृत रूप से पुष्टि करता है कि कैसे अमेज़न ने समिति की 16 महीने की

वरिष्ठ अधिकारी ने गलत तरीके से प्रतिनिधित्व किया और कहा कि अमेज़न अपने तीसरे पक्ष के विक्रेताओं से उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एकत्र किए गए डेटा का उपयोग नहीं करता है और ग्राहक खोज परिणामों में अपने उत्पादों को तीसरे पक्ष के उत्पादों से पहले सूचीबद्ध नहीं करता है जबकि समिति की विश्वसनीय जांच ठीक इसके विपरीत है।

संगठन के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि अब जब समिति का 24 पृष्ठ का पत्र सार्वजनिक डोमेन में है तो यह भारत की नियामक एजेंसियों से उम्मीद है कि वे जाग जायें और इस बात पर तत्काल संज्ञान लें कि अमेज़न कैसे भ्रामक आचरण के पैटर्न और अभ्यास में शामिल हुआ और किस तरह से उसने समिति को गुमराह करने की चेष्टा की है।

# शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी

**मुंबई।** वैश्विक स्तर के मिश्रित संकेतों के बीच आज घरेलू स्तर पर हेल्थकेयर जैसे समूहों में ह्यूयी लिवाली के बल पर शेयर बाजार गिरावट से उबरते हुये लगातार तीसरे दिन बढ़त बनाने में सफल रहा। इस दौरान सेंसेक्स 85.91 अंकों की बढ़त के साथ 55550.30 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 35.55 अंक बढ़कर 16630.45 अंक पर रहा। बीएसई में दिग्गज कंपनियों की तुलना में छोटी और मझौली कंपनियों में अधिक लिवाली हुयी जिससे मिडकैप 0.45 प्रतिशत बढ़कर 23309.95 अंक पर और स्मॉलकैप 0.90 प्रतिशत चढ़कर 27141.43 अंक पर रहा। बीएसई में शामिल समूहों में से ऑटो 0.35 प्रतिशत, टेलीकॉम 0.14



प्रतिशत, टेक 0.12 प्रतिशत और आईटी 0.08 प्रतिशत की गिरावट को छोड़कर शेष सभी समूह बढ़त में रहा। इसमें हेल्थकेयर में सबसे अधिक 2.07 प्रतिशत की तेजी रही। बीएसई में कुल 3485 कंपनियों में कारोबार हुआ जिसमें से 2076 बढ़त में और 1263 गिरावट में रहे जबकि 119 में कोई बदलाव नहीं हुआ।

वैश्विक स्तर पर मिश्रित रूख देखा गया जिसमें जर्मनी का डैक्स 1.31 प्रतिशत, ब्रिटेन का एफटीएसई 0.99 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.41 प्रतिशत की बढ़त में रहा जबकि जापान का निक्केई 2.05 प्रतिशत और हांगकांग का हेंगसेंग 1.61 प्रतिशत की गिरावट में रहा। बीएसई का सेंसेक्स करीब 244 अंकों

की गिरावट लेकर 55218.78 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 55049.95 अंक के निचले और 55833.95 अंक के उच्चतम स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस के 55464.39 अंक की तुलना में 0.15 प्रतिशत अर्थात 85.91 अंक बढ़कर 55550.30 अंक पर रहा। एनएसई का निफ्टी 64 अंकों की गिरावट लेकर 16528.80 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 16470.90 अंक के निचले और 16694.40 अंक के उच्चतम स्तर के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस के 16594.90 अंक की तुलना में 35.55 अंक अर्थात 0.21 प्रतिशत बढ़कर 16630.45 अंक पर रहा। निफ्टी में शामिल 50 में से 28 हरे निशान में और 22 लाल निशान में रहे।

## सरकार ने पीएलआई योजना के तहत ड्रोन उद्योग से आवेदन मांगे

**नयी दिल्ली।** सरकार ने भारत में ड्रोन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विनिर्माताओं से उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत निवेश के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने ड्रोन और उसके कल पुर्जों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए तीन साल में कुल 120 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। योजना का लाभ ड्रोन और ड्रोन पुर्जों में मूल्यवर्धन के कम से कम 20 प्रतिशत के बराबर रखा गया जो किसी क्षेत्र की पीएलआई योजना में प्रोत्साहन के बससे ऊंचे अनुपातों में एक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को विज्ञप्ति में कहा, 'योजना के अनुसार ड्रोन और ड्रोन पुर्जों की कुल बिक्री के हिसाब से न्यूनतम मूल्य-संवर्धन मानक 50 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत रखा गया है, जो ड्रोनों के लिये विशेष सुविधा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपकरणों तथा स्टार्ट-अप के लिये पात्रता मानक मामूली स्तरों पर है।' मूल्य-संवर्धन की गणना ड्रोन और ड्रोन पुर्जा (जोएसटी के हिसाब) की तुलना में से स्थिर रखा गया है, जो ड्रोनों के लिये विशेष सुविधा है। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक है। योजना के दायरे में ड्रोन सम्बंधी सॉफ्टवेयर के विकासकर्ताओं को भी रखा गया है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा, एक निर्माता के लिए पीएलआई कुल वार्षिक लागत के 25 प्रतिशत पर सीमित होगा।

# पेट्रोल, डीजल के दाम 127 वें दिन भी स्थिर



**एजेसी**  
**नयी दिल्ली।** रूस यूक्रेन संकट से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चल रहे उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर आज लगातार 127वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल रूस यूक्रेन संकट के बाद ही शुरू हो गया था। जोकि कुछ दिन पहले 139 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर पहुंच गयी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110.72 डॉलर प्रति बैरल हुयी, जो गुरुवार को 114.36 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर थी। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः पांच और 10 रुपये घटाने की घोषणा के बाद 04 नवंबर 2021 को इंधन की कीमतों में तेजी से कमी आई थी। इसके बाद राज्य सरकार के मूल्य वर्धित कर (वैट) कम करने के फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में भी वैट को कम करने का

## देश के चार बड़े महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार रहे

महानगर.....	पेट्रोल.....	डीजल (रुपए प्रति लीटर)
दिल्ली.....	95.41.....	86.67
कोलकाता .....	104.67.....	89.79
मुंबई .....	109.98.....	94.14
चेन्नई.....	101.40.....	91.43

निर्णय लिया गया। इसके बाद राजधानी में 02 दिसंबर 2021 को पेट्रोल लगभग आठ रुपये सस्ता हुआ था। डीजल की भी कीमतें हालांकि जस की तस बनीं रहीं। केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) कम कर दिया था, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूरार्क में ब्रेंट क्रूड में कीमत 1.27 प्रतिशत के बदलाव के साथ 110.72 डॉलर प्रति बैरल पर थी, जबकि अमेरिकी क्रूड में 0.97 प्रतिशत का परिवर्तन होकर 107.05 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की नित्य प्रतिदिन समीक्षा होती है और उसके आधार पर आगामी दिनों में पेट्रोल की काफ़ी राहत मिली थी।

## गुप एडमिन को मिले नए अधिकार, फेसबुक की फेक कंटेंट रोकने की नई पहल

नई दिल्ली। गुप मेंबर्स के बीच शेयर की गई फेक पोस्ट को कम करने के लिए फेसबुक ने गुप के लिए नया फीचर लाया है। इसमें गुप एडमिन को उन पोस्टों को ऑटोमेटिक रिजेक्ट करने वाला अपडेट देता है। यह तब भी काम करेगा जब किसी थर्ड पार्टी फेक्ट चेकर्स गुप को पोस्ट को फेक के रूप में चिन्हित करेगा। इससे किसी यूजर्स के द्वारा पोस्ट किए गए फेक कंटेंट दूसरे मेंबर्स दिखाई देना बंद हो जाएंगे। कई प्राइवेट गुप होने की वजह से फेसबुक पर सबसे बड़ी समस्या अक्सर देखी जाती है कि गलत जानकारी को जल्दी फैला दिया जाता है। फेसबुक के गुप पर कोविड-19 की गलत जानकारी और दूसरे तरह की किसी सांज्ञिक को बढ़ावा देने में मदद करने के आरोप लगाते रहे हैं। इसी को देखते हुए फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए गए गुप पर फेक कंटेंट वाले पोस्ट को पहचानने और रिजेक्ट करने वाले ऑटोमेटिक टूल को पेश किया है। इससे बड़े पैमाने पर फेसबुक गुप के जरिए गलत जानकारी का प्रचार करने वाले गिरोह को रोकने में मदद मिलेगी।

## वाहनों की घरेलू बिक्री 23.49 प्रतिशत गिरी: सियाम

**एजेसी**  
**मुंबई।** भारतीय बाजार में फरवरी माह में वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 23.49 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,28,027 इकाई बिके हैं। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सीआम) ने सेमीकंडक्टर और ऊंची कीमतों को बिक्री में गिरावट का मुख्य कारण बताया है। इसी तरह वर्ष 2021 के मुकाबले पिछले वर्ष इसी माह घरेलू बाजार में सियाम ने शुक्रवार को बताया कि फरवरी 2022 में यात्री वाहन, तिपहिया, दुपहिया वाहन और क्राइसीसाइकल का कुल उत्पादन 17,95,514 इकाई था। घरेलू बाजार में फरवरी 2022 में 262,984 यात्री वाहनों की बिक्री हुयी, जो पिछले साल इस माह में 2,81,380 थी।

बिक्री क्रमशः 27,039 और 10,37,994 की तुलना में घटकर, इस वर्ष 27,656 और 14,26,865 रही। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने फरवरी 2022 के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फरवरी 2021 के मुकाबले सवारी वाहन, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री घटी है। श्री मेनन ने कहा, 'लगातार चल रही सेमीकंडक्टरों की कमी की चुनौती, नयी नीतियों के कारण कीमतों में इजाफा, उच्च वस्तु की कीमत, उच्च रसद लागत आदि का प्रभाव वाहन उद्योग की पूर्ण बिक्री पर पड़ी है।' उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संकट के प्रभावों पर उद्योग नज़र बनाए हुए हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति क्रम दबाव में आ गया है। चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में वाहनों की बिक्री की घटकर 1,51,77,293 हो गयी है, जोकि वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल-फरवरी के बीच 1,61,46,902 थी। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक सवारी, तिपहिया, दुपहिया वाहनों और क्राइसीसाइकल्स का कुल उत्पादन 2,00,42,351 रहा।

## फ्यूचर गुप के लोकेशन पर रिलायंस अपना स्टोर शुरू करेगी, स्मार्ट बाजार होगा ब्रांड

**एजेसी**  
**मुंबई।** रिलायंस रिटेल एक नई योजना बना रही है। कंपनी फ्यूचर गुप लोकेशंस पर नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार लॉन्च करने वाली है। इस स्टोरी में रिलायंस रिटेल के मौजूदा स्मार्ट सुपरमार्केट की तुलना में रोजमर्रा के ड्रेस और सामान्य माल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्राहक को जुड़ाव महसूस हो सके। एक लाख वर्ग फुट तक होगा दायरा जानकारी के मुताबिक, फ्यूचर गुप के सेंट्रल जैसे बड़े स्टोर 60,000 वर्ग फुट में फैले हुए हैं। इनका दायरा अब 100,000 वर्ग फुट तक भी किया जा रहा है। रिलायंस गुप अब रिलायंस मॉल जैसे अपने मौजूदा फॉर्मेट पर विचार कर रहा है। इसमें सभी फॉर्मेट का मिक्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी शामिल है। फ्यूचर गुप ने दिया प्रस्ताव इसके बदले में, फ्यूचर गुप ने रिलायंस को फ्यूचर गुप की फ्रेंचाइजी के रूप में सेंट्रल फॉर्मेट को संचालित करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि ब्रांड नाम बना रहे। प्रत्येक सेंट्रल के पास 80-100 स्वतंत्र ब्रांड हैं, जो शॉप-इन-शॉप के रूप में फीस देकर ऑपरेट कर रहे हैं। रिलायंस, फ्यूचर गुप के किराना स्टोर ईजी डे और हेरिटेज को बदलने के लिए अपने छोटे रिटेल ब्रांड जैसे सेवन इलेवन (7-11) और रिलायंस फेश को रोल आउट करेगी। कुछ फॉर्मेट बदले जाएंगे इसी तरह कुछ बेल्यू अप्रैल फॉर्मेट F8B के ट्रेंड्स में बदल दिया जाएगा, जो रिलायंस की बेल्यू फैशन चैन है। रिलायंस वर्तमान में सभी फिजिकल एसेट्स, जैसे एयर-कंडीशनर, लाइट, फ्रिज, बिरिलिंग मशीन, टूटली और यहां तक कि एस्केलेटर मशीन को स्टोर लोकेशंस से हटा रहा है। 17,000 करोड़ के कर्ज में कंपनी रिलायंस उन असेट्स को फ्यूचर गुप को सौंप रहा है। ये असेट्स अब 17,000 करोड़ रुपए के कर्ज के पैमेंट के लिए बैंकों को दी जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर गुप ने डिफॉल्ट किया है।

# विस चुनाव निवेशकों, नीति विशेषज्ञों की राय, अर्थव्यवस्था के अनुकूल हैं चुनाव परिणाम

**नयी दिल्ली।** देश के पांच राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को अर्थशास्त्री और विश्लेषक अर्थव्यवस्था के अनुकूल मान रहे हैं और उनका कहना है कि इससे आने वाले छह-सात वर्ष की नीतियों और सुधारों को लेकर बाजार का भरोसा बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुरुवार को घोषित चुनाव नतीजों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और त्रिपुरा में अच्छे प्रदर्शन के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। विशेषज्ञों का कहा कि सरकार पर अब लोक लुभावाने निर्णयों का दबाव घट गया है इस लिए वह वृहद आर्थिक स्थिरता पर अधिक ध्यान देगी। उनको उम्मीद है कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार राजकोषीय मजबूती के लिए आगे आने वाले दिनों में अब आक्रामक रूप से परिसंपत्ति मुद्राकरण और निजीकरण पर जोर दे सकती। इनविजन कैपिटल के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी

मिलेगा, बल्कि यह उसे आगे बढ़ाएगी।' उन्होंने कहा कि भाजपा के समर्थन में आए चुनाव नतीजों से वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 403 विधानसभा सीटों में से 255 पर जीत हासिल की है। पार्टी अन्य तीन राज्यों- उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी पुनः सरकार बनाएगी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव में जीत हासिल किया है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस नें पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। उद्योग विश्लेषक इन चुनावों को पूर्ण वृद्धि और विकास के लिहाज से सकारात्मक रूप से देख रहे हैं क्योंकि यह नीतिगत सेन्ट्रम कैपिटल के अवसरचना सलाहकार के प्रबंध निदेशक संदीप उपाध्याय ने कहा, 'सतत आर्थिक विकास का मुद्दा निश्चित रूप से और बाजार को चलाने वाले एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक) की अपेक्षा के अनुरूप है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी पर प्रबलता से ध्यान देना होगा और मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए प्राथमिकता रहेगी।' उन्होंने कहा, 'आगे चल कर हुए हम वित्तीय बाजारों को आवश्यक गति प्रदान करने वाली नीति और नियामक योजना को लेकर अधिक स्थिरता की उम्मीद कर सकते हैं। नीतियों को लेकर और बजट 2022-23 से साफ पता चलता है कि सरकार पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किया है। नाम न छापने की शर्त पर मुंबई के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि चुनाव परिणाम एक तरह से भाजपा के लिए यथास्थिति है और अपने समर्थन के आधार के बारे में पार्टी के डर को दूर करते हैं। उन्होंने कहा, 'कुल मिला कर से यह सकारात्मक है।'




## गंगूबाई काठियावाड़ी के 'शिकायत' गाना को खास मानती है हुमा कुरैशी

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के 'शिकायत' गाना को खास मानती है। हुमा कुरैशी को फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के 'शिकायत' गाने के लिए काफी सराहना मिल रही है। हुमा कुरैशी, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं। हुमा कुरैशी ने कहा, मैंने पूरी प्रक्रिया और गाने में लिए संजय सर के दृष्टिकोण का आनंद लिया। शिकायत गाना मेरे लिए बहुत खास है। गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली

के निर्देशन में बनी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया भट्ट की मुख्य भूमिका है। इस फिल्म में आलिया 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की भूमिका में है। फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' मुंबई के कमाठीपुरा के एक वेश्यालय की मंडम गंगूबाई कोठेवाली के जीवन से प्रेरित है और हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्रांस ऑफ मुंबई' के एक अध्याय पर आधारित है।



## अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म 'सेल्फी' की शूटिंग शुरू



मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'सेल्फी' की शूटिंग शुरू हो गयी है। राज मेहता के निर्देशन में बन रही सेल्फी वर्ष 2019 में प्रदर्शित मलयालम भाषा की कॉमेडी-ड्रामा 'झड़विंग लाइसेंस' की रीमेक है। इस फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की मुख्य भूमिका है। करण जोहर के नेतृत्व वाले धर्मा प्रोडक्शंस ने बैनर के सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म सेल्फी की शूटिंग शुरू होने की खबर साझा की। सोशल मीडिया पर ब्लैप की तस्वीर सामने आई है और लिखा गया है कि, सेल्फी का पहला दिन और हमें आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और अच्छे वाइब्स की जरूरत है! इस बीच, हाशमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, 'सेल्फी टाइम (जोहर ने अभिनेता की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा, एक पैर तोड़ो इमरान।

## वीनस एंटरटेनर्स के साथ मिलकर फिल्म निर्माण करेगा लाहारी म्यूजिक

मुंबई। दक्षिण भारत के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल लाहारी म्यूजिक ने अपने फिल्म प्रोडक्शन लाहारी फिल्म एलएलपी के तहत वीनस एंटरटेनर्स के साथ मिलकर फिल्म बनाने की घोषणा की है। दक्षिण भारत के सबसे बड़े, बंगलोर स्थित म्यूजिक लेबल लाहारी म्यूजिक वीनस एंटरटेनर्स के साथ लाहारी फिल्म एलएलपी बैनर के तहत फिल्म निर्माण में प्रवेश कर रहा है, और यह कॉलेबोरेशन ऐस - मैवरिक फिल्म निर्देशक / अभिनेता उषेंद्र के साथ किया जा रहा है।



लाहारी म्यूजिक ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक जी मनोहरन ने कहा कि, पिछले 25 वर्षों से एक-दूसरे के साथ

फिल्म 'ए' से उषेंद्र जी का समर्थन किया, जो दक्षिण में सबसे बड़ी हिट रही और 90 के दशक के अंत में एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई, हमने हमेशा से उनकी फिल्मों का आनंद लिया है जो एक सार्वभौमिक दृष्टि से भरी होती हैं और हम चाहते हैं कि पूरे भारतीय दर्शक अब भारत और विदेशों में उनकी फिल्मों का अनुभव करें। वीनस एंटरटेनर्स के प्रोप्राइटर श्रीकांत केपी ने कहा कि, एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में 'तगारू' और 'सलागा' जैसी बैंक टू बैंक सफल ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद हमने पिछले दो दशकों में

विभिन्न स्तरों पर विभिन्न परियोजनाओं पर उनके साथ काम किया है, हम बेहद खुश हैं। उषेंद्र के साथ काम करना हमेशा लोगों को आकर्षित करता है और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश इस नए अखिल भारतीय विज्ञान को पसंद करेगा। निर्देशक/अभिनेता उषेंद्र का कहना है कि 90% में इस पैन इंडिया फिल्म के जरिए से इस रोमांचक सहयोग के लिए उत्साहित हूँ, मुझे यकीन है कि यह फिल्म पूरे भारतीय दर्शकों को यह जबरदस्त सिनेमाई अनुभव कराएगा जो उन्हें पसंद आएगा।



## तनु वेड्स मनु के तीसरे संस्करण में जीशान अयूब के साथ नजर आयेगी कंगना रनौत!

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी सुपरहिट फिल्म तनु वेड्स मनु के तीसरे संस्करण में जीशान अयूब के साथ नजर आ सकती है। कंगना रनौत की फिल्म तनु वेड्स मनु वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुयी थी इसके बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 2015 में रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों ब्लॉकबस्टर थीं और इन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला था। चर्चा है कि इस फ्रेंचाइजी का तीसरा

पार्ट भी आने वाला है। कहा जा रहा है कि फिल्म के तीसरे पार्ट में कहानी जीशान अयूब और कंगना के किदार के आसपास बुनी जाएगी। जीशान अयूब ने बताया कि फिल्म के राइटर हिमांशु शर्मा इसपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन कहानी उनको और कंगना को सेंटर में रखकर लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी इस पर बातचीत जारी है।

## पैसों के लिये नहीं, जूनून के लिये काम करता हूँ : अक्षय एग्जेंसी

मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का कहना है कि वह अब पैसों के लिये नहीं बल्कि जूनून के लिये काम करते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कलाकारों में से शामिल हैं जो हर साल अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अक्षय कुमार ने ज्यादा फिल्में करने की वजह का खुलासा किया है। अक्षय कुमार ने कहा है कि वह अब पैसों के लिए नहीं बल्कि जूनून के लिए फिल्में करते हैं। उन्होंने कहा, यदि आप रोजाना काम करते रहेंगे तो आसानी से आपके पास कई फिल्में पाइपलाइन में होती हैं। मैं आज पैसे के लिए नहीं बल्कि जूनून के लिए काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं बोर महसूस करूंगा, उस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बच्चन पांडेय को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म बच्चन पांडेय में अक्षय कुमार के अलावा कृति सेनन, अरशद वारसी और जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है। फिल्म 'बच्चन पांडे' 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



# सिगरेट की लत से हैं परेशान तो आजमाएं ये आसान उपाय, धूम्रपान छोड़ने में मिलेगी मदद

प्रिया मिश्रा  
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धूम्रपान छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और इस दौरान इस तरह की समस्या होना आम बात है। इसलिए आपको एकदम की बजाए धीरे-धीरे सिगरेट छोड़ने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनकी मदद से आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद मिलेगी। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है। लेकिन कई लोग चाहकर भी अपनी धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाते हैं। कई लोग इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन स्मोकिंग छोड़ने से उन्हें वजन बढ़ना,



नौद न आना, कमजोरी आना, भूख, गुस्सा, तनाव होना और किसी कार्य में ध्यान न लगना या फिर बैचैनी महसूस होने जैसी कई समस्याएं होने लगती हैं। इस डर की वजह से वे चाह कर भी धूम्रपान करना नहीं छोड़ पाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, धूम्रपान छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और इस दौरान इस तरह की समस्या

होना आम बात है। इसलिए आपको एकदम की बजाए धीरे-धीरे सिगरेट छोड़ने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिनकी मदद से आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद मिलेगी -

**अजवाइन**  
अजवाइन की मदद से भी आप अपनी स्मोकिंग की लत से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे तो आप अजवाइन को अपने मुँह में रख लें। अजवाइन के बीज चबाते से आपको स्मोकिंग की आदत छोड़ने में मदद मिलेगी।

**शहद**  
अगर आप सिगरेट जो लत छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में शहद का इस्तेमाल

आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शहद में विटामिन, एंजाइम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो धूम्रपान की लत छोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शहद का सेवन करें।

**अश्वगंधा और शतावरी**  
अश्वगंधा और शतावरी बहुत ही कारगर जड़ी बूटियाँ हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेद में कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। धूम्रपान करने से शरीर में कई विषाक्त पदार्थों का जमाव होने लगता है। ऐसे में अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों से शरीर से इन जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है।

## बेहद आम हो गई है ये 5 जानलेवा बीमारियाँ, आधुनिक लाइफस्टाइल से स्वास्थ्य पर हो रहा है यह असर

हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण हमारे खानपान और रहन-सहन का ढंग बदल गया है। इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियाँ आम हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में 30 से 69 की उम्र के 14.12 मिलियन लोग हर साल हार्ट अटैक, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के कारण मौत का शिकार हो रहे हैं।



**मोटापा**  
आज के समय में मोटापा एक बेहद आम और खतरनाक समस्या है। इसका मुख्य कारण है हमारी आधुनिक जीवनशैली। मोटापा अपने साथ साथ कई अन्य गंभीर बीमारियाँ भी लेकर आता है। अस्तित्व भोजन, जंक फूड का ज्यादा सेवन और सुस्त जीवनशैली के कारण लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं।

**हाई ब्लड प्रेशर**  
आधुनिक लाइफस्टाइल के कारण हाई बीपी की समस्या बेहद आम हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में करीब 100 मिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। मोटापा, गलत खानपान, शराब का सेवन और तनाव ब्लड प्रेशर के मुख्य कारक हैं। हाई बीपी के कारण दिल की बीमारी का खतरा भी अधिक रहता है।

**डायबिटीज**  
भारत में बढ़ी संख्या में लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। जहाँ पहले यह बीमारी बड़े बुजुर्गों में ही सुनने को मिलती थी। वहीं, आज बच्चे भी डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। मोटापा, धूम्रपान, खानपान की गलत आदतें और स्वस्थ जीवनशैली के कारण डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है।

**दिल की बीमारियाँ**  
आजकल की आधुनिक जीवनशैली और खानपान की गलत आदतों के कारण दिल की बीमारियों का खतरा बहुत अधिक बढ़ गया है। आज के समय में बुजुर्ग नहीं कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

# बड़े काम की चीज़ है सौंफ, कई स्किन प्रॉब्लम्स में है रामबाण इलाज

सौंफ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीसेप्टिक गुण भी मौजूद होते हैं, जो कई बीमारियों से बचाव करते हैं। सौंफ ना केवल हमारी सेहत, बल्कि हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। सौंफ का इस्तेमाल त्वचा की कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है।



अगर आप मुँहासों की समस्या से परेशान हैं तो सौंफ का इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सौंफ में एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जिससे फंगल इंफेक्शन को रोकने में मदद मिलती है और त्वचा की नमी बरकरार रहती है। इसके लिए सौंफ को पीस कर पाउडर बना लें। इसके बाद इसमें दही और शहद मिलाकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से चेहरा साफ कर लें। सौंफ का इस्तेमाल आप अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए लिए एक चम्मच सौंफ और दो चम्मच ओटमील को मिक्सो में पानी के साथ ब्लेंड कर लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सादे पानी से चेहरा साफ

कर लें। ऐसा करने से त्वचा पर जमा मृत कोशिकाएं निकल जाएंगी और चेहरा साफ और बेदाग बनेगा। अगर सुबह उठने के बाद आपको आँखें सूजी हुई महसूस होती हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए दो चम्मच सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। अब इसमें कॉटन भिगोकर कुछ मिनट तक अपनी आँखों पर रखें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी आँखों को सूजन खत्म हो जाएगी। आप सौंफ का इस्तेमाल टोनर के रूप में भी कर सकते हैं। इससे आपको बेदाग और निखरी हुई त्वचा मिलेगी। इसके लिए दो चम्मच सौंफ को पानी में उबाल लें। इसके बाद इसे टंडा करके छान लें और एक स्प्रे बोतल में डालें। फिर इसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर करें। अगर आपको बार-बार मुँहासे हो जाते हैं या चेहरे के रोमछिद्र बंद हैं तो इसके लिए पानी में सौंफ मिलाकर स्टीम लें। इसके लिए एक लीटर पानी में सौंफ डालकर उबाल लें। जब पानी उबलने लगे तो इससे लगभग 5 मिनट तक स्टीम लें। इसके बाद किसी नरम तौलिए से चेहरा पोछ लें। इससे आपको साफ और निखरी हुई त्वचा मिलेगी।

आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शहद में विटामिन, एंजाइम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो धूम्रपान की लत छोड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्मोकिंग की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शहद का सेवन करें।



**गिताली जैल**  
लम्बे और घने बाल तो हर कोई चाहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के बाल घने ही हों। कुछ लोगों के बाल नेचुरली काफी पतले होते हैं, या फिर उन्हें हेयर फॉल की समस्या होती है और इसलिए उनके बालों की ग्रोथ उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाती है। ऐसे में जरूरत होती है कि आप अपने खानपान पर विशेष ध्यान दें। दरअसल, आहार आपकी इनर हेल्थ को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि

इसका असर आपकी स्किन और हेयर पर भी पड़ता है। दरअसल, ऐसे कई फूड्स होते हैं, जो आपके बालों को घना बनाने के साथ उनकी ग्रोथ में भी मदद करते हैं। जिसके बारे में आज हम आपको इस लेख में बता रहे हैं -

**खाएँ अंडे**  
अंडे प्रोटीन और बायोटिन का एक बड़ा स्रोत हैं, यह दोनों ही चीजें बालों के लिए बेहद लाभदायक हैं। जहाँ, बालों के विकास के लिए पर्याप्त प्रोटीन खाना महत्वपूर्ण है। वहीं,

और विकास के लिए आवश्यक है। यह ना केवल आपके बालों के रोम को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उन्हें पोषित करने के बालों की ग्रोथ में मददगार बनते हैं।